



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

08_02_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. Tourists flock to Munnar as hill station continues to experience cold weather / मुन्नार में ठंड का कहर जारी रहने के कारण पर्यटक यहां आ रहे हैं
2. Russia claims to have captured the mining town of Toretsk in Donetsk / रूस ने डोनेट्स्क में खनन शहर टोरेत्स्क पर कब्जा करने का दावा किया है
3. DR Congo conflict advances; UN says risk of regional escalation has never been higher / डी.आर. कांगो संघर्ष आगे बढ़ा; संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का जोखिम पहले कभी इतना अधिक नहीं था

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : **9971932488**
Website : patrioticias.in



Tourists flock to Munnar as hill station continues to experience cold weather

GS Paper I: Geography

The Hindu Bureau
IDUKKI

While Kerala is reeling under the heat, Munnar hill station continued to witness the season's lowest temperature, with Chenduvurai recording zero degrees Celsius on Friday.

As per data from the United Planters Association of South India, Nallathanni Munnar town, Letchmi, Silent Valley, and Devikulm have recorded a temperature of 3 degrees Celsius. Seven Malai saw 4 degrees Celsius, while R&D Mattupetty witnessed 5 degrees Celsius on Friday morning.

According to climatologist Gopakumar Cholayil, the hill station might have experienced a long winter



Icy mornings: A frost-covered grassland at Chenduvurai near Munnar in Idukki on Friday morning. SPECIAL ARRANGEMENT

if not for the cyclonic circulation and depression that occurred in January. "Better humidity levels, clear skies, and no hindrance from long wave ra-

diation are required to experience sub-zero temperature in the hill station."

Mr. Cholayil said the hill station experienced a long

winter with mercury dipping to sub-zero in February 2019. According to climate experts, there is a change in the pattern of winter in Munnar. Usually, normal winter in Munnar will begin from November, with the hill station experiencing extreme cold in the first week of January.

The chilly weather will come to an end around the second week of January. However, this year the winter has extended to February.

G. Sojan, coordinator of the My Munnar Movement, said there has been a continuous inflow of tourists to the hill station from December. "Many tourists are arriving at the hill station to enjoy the chilly weather," he said.

Tourists flock to Munnar as hill station continues to experience cold weather

मुन्नार में ठंड का कहर जारी रहने के कारण पर्यटक यहां आ रहे हैं

Munnar Records Season's Lowest Temperature

मुन्नार ने सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया

- Munnar hill station witnessed the season's lowest temperature, with Chenduvurai recording zero degrees Celsius on Friday.

मुन्नार हिल स्टेशन ने सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया, जिसमें चेंदुवुरई में शुक्रवार को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

- As per data from the United Planters Association of South India, Nallathanni Munnar town, Letchmi, Silent Valley, and Devikulm have recorded a temperature of 3 degrees Celsius.



यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, नल्लाथानी मुन्नार टाउन, लेछ्मी, साइलेंट वैली, और देविकुलम में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

- **Seven Malai saw 4 degrees Celsius, while R&D Mattupetty witnessed 5 degrees Celsius on Friday morning.**

सात मलाई में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि R&D मट्टुपेट्टी में शुक्रवार सुबह को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया।

- According to climatologist **Gopakumar Cholayil**, the hill station might have experienced a long winter if not for the **cyclonic circulation and depression** that occurred in **January**.

मौसम विज्ञानी गोपालकुमार चोलेयिल के अनुसार, हिल स्टेशन ने जनवरी में हुई चक्रवातीय परिसंचरण और डिप्रेशन के कारण लंबी सर्दी का अनुभव किया होता।

- **Better humidity levels, clear skies, and no hindrance from long wave radiation** are required to experience **sub-zero temperature** in the hill station.

हिल स्टेशन में सुब-जीरो तापमान अनुभव करने के लिए बेहतर आर्द्रता स्तर, स्पष्ट आसमान, और लंबी लहरों से विकिरण का कोई रुकावट नहीं आवश्यक है।

- Mr. Cholayil mentioned that the hill station experienced a **long winter** with mercury dipping to sub-zero in **February 2019**.

श्री चोलेयिल ने कहा कि हिल स्टेशन ने फरवरी 2019 में पारा सुब-जीरो तक गिरने के साथ लंबी सर्दी का अनुभव किया।

- According to climate experts, there is a **change in the pattern of winter** in **Munnar**.

जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार, मुन्नार में सर्दी के पैटर्न में बदलाव आया है।

- Usually, normal winter in **Munnar** will begin from **November**, with the hill station experiencing extreme cold in the first week of **January**.

सामान्य सर्दी का मौसम मुन्नार में आमतौर पर नवंबर से शुरू होता है, और हिल स्टेशन जनवरी के पहले सप्ताह में चरम ठंड का अनुभव करता है।

- The chilly weather usually comes to an end around the second week of **January**, but this year the winter has extended to **February**.

ठंडी का मौसम आमतौर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास समाप्त हो जाता है, लेकिन इस साल सर्दी का मौसम फरवरी तक बढ़ गया है।

- **G. Sojan**, coordinator of the **My Munnar Movement**, said there has been a **continuous inflow of tourists** to the hill station from **December**.

जी. सोजन, माय मुन्नार मूवमेंट के समन्वयक ने कहा कि दिसंबर से हिल स्टेशन में पर्यटकों का निरंतर आगमन हो रहा है।

- Many tourists are arriving at the hill station to enjoy the **chilly weather**.

कई पर्यटक ठंडी के मौसम का आनंद लेने के लिए हिल स्टेशन पर आ रहे हैं।



Website: patrioticias.in
Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Munnar: A Renowned Hill Station

मुन्नार: एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन

- Munnar is a picturesque hill station located in the Idukki district of Kerala, India. Situated at approximately 1,600 meters (5,200 feet) above sea level in the Western Ghats mountain range, it is renowned for its sprawling tea plantations, lush greenery, and serene landscapes.
- मुन्नार भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर (5,200 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है और अपने विस्तृत चाय बागानों, हरे-भरे परिदृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।



Etymology

शब्द की उत्पत्ति

- The name "Munnar" is derived from the Malayalam and Tamil words "Munnu" (three) and "Aaru" (river), referring to its strategic location at the confluence of three rivers: the Muthirapuzha, Nallathanni, and Kundali.
- "मुन्नार" नाम मलयालम और तमिल शब्दों "मुन्नु" (तीन) और "आरु" (नदी) से लिया गया है, जो तीन नदियों: मुथिरापुझा, नल्लथन्नी, और कुंडली के संगम पर इसकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

Historical Background

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- Historically, Munnar was a favorite summer resort during the British colonial period. The British developed the area into a major center for tea plantations in the late 19th century. The legacy of this era is evident in the colonial architecture and the expansive tea gardens that still dominate the landscape.
- ऐतिहासिक रूप से, मुन्नार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एक पसंदीदा ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट था। ब्रिटिशों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र को चाय बागानों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया। इस युग की विरासत औपनिवेशिक वास्तुकला और विस्तृत चाय बागानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो अभी भी परिदृश्य पर हावी हैं।

Climate

जलवायु

- Munnar experiences a subtropical highland climate (Köppen Cwb), characterized by mild temperatures throughout the year. Winter temperatures can drop to 5°C (41°F), while summer temperatures range between 15°C (59°F) and 25°C (77°F). The region receives heavy rainfall during the monsoon season, contributing to its lush greenery.
- मुन्नार में उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु (कोप्पेन Cwb) होती है, जो पूरे वर्ष हल्के तापमान की विशेषता है। सर्दियों में तापमान 5°C (41°F) तक गिर सकता है, जबकि गर्मियों में तापमान 15°C (59°F) से 25°C (77°F) के बीच रहता है। क्षेत्र में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जो इसकी हरी-भरी हरियाली में योगदान करती है।

Tourist Attractions

पर्यटक आकर्षण

- **Eravikulam National Park:** Home to the **endangered Nilgiri Tahr**, this park offers trekking opportunities and panoramic views of the tea plantations.




एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान: लुप्तप्राय नीलगिरि तहर का घर, यह उद्यान ट्रेकिंग के अवसर और चाय बागानों के मनोरम दृश्य प्रदान करता है।

- **Anamudi Peak:** The **highest peak in South India**, standing at 2,695 meters (8,842 feet), is located within the Eravikulam National Park.

अनामुडी चोटी: दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो 2,695 मीटर (8,842 फीट) की ऊंचाई पर है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है।

Russia claims to have captured the mining town of Toretsk in Donetsk

GS Paper I: World geography



AFP

Russia's Defence Ministry claimed on Friday that its forces had captured the mining town of Toretsk in their latest breakthrough in eastern Ukraine's Donetsk region, where Ukrainian defences are creaking. Ukrainian officials did not immediately make any comments on the Russian claim. AP

this area.

इस क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षा प्रणालियाँ कमजोर हो रही हैं।

- **Ukrainian officials** did not immediately make any comments on the Russian claim. **यूक्रेनी अधिकारियों** ने रूस के दावे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

Russia claims to have captured the mining town of Toretsk in Donetsk

रूस ने डोनेट्स्क में खनन शहर टोरेट्स्क पर कब्जा करने का दावा किया है

- **Russia's Defence Ministry** claimed on **Friday** that its forces had captured the **mining town of Toretsk** in their latest breakthrough in **eastern Ukraine's Donetsk region**.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि उसकी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में अपनी नवीनतम सफलता में **तोरेट्स्क खनन नगर** पर कब्जा कर लिया है।

- Ukrainian defences are **creaking** in



DR Congo conflict advances; UN says risk of regional escalation has never been higher

GS Paper I: World Geography

BUKAVU

The Rwanda-backed M23 armed group was threatening another key town in eastern Democratic Republic of Congo on Friday as the United Nations warned that the risk of violence spreading regionally had "never been higher".

M23 and Rwandan troops seized the city of Goma last week and are now pushing into the neighbouring South Kivu province.

Thousands have died and huge numbers displaced as they have overtaken swathes of the mineral-rich region, routing DRC troops and their allies in



M23 and Rwandan troops seized the city of Goma last week and are now pushing into the neighbouring South Kivu province. AFP

the latest episode of decades-long turmoil in eastern DRC.

Congolese forces were bracing for an assault on the town of Kavumu, which hosts an airport crit-

ical to supplying its troops. Kavumu is the last barrier before the South Kivu provincial capital Bukavu on the Rwandan border, where residents were also on edge. "We see some pe-

ople starting to flee," resident Aganze Byamungu said.

Fear of looting

Shops were barricading their fronts and emptying storerooms for fear of looting, while schools and universities suspended classes.

"The border with Rwanda is open but almost impassable because of the number of people trying to cross. It's total chaos," they added.

Rwandan President Paul Kagame and Congolese President Felix Tshisekedi are due to attend a summit in Tanzania on Saturday as regional powers try to defuse the crisis.

DR Congo conflict advances; UN says risk of regional escalation has never been higher

डी.आर. कांगो संघर्ष आगे बढ़ा; संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का जोखिम पहले कभी इतना अधिक नहीं था

M23 Group Threatens Another Key Town in Eastern DR Congo

M23 समूह ने पूर्वी डीआर कांगो में एक और महत्वपूर्ण नगर को धमकी दी

- The **Rwanda-backed M23 armed group** was threatening another key town in **eastern Democratic Republic of Congo** on **Friday**.
रवांडा-समर्थित M23 सशस्त्र समूह ने पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक और महत्वपूर्ण नगर को शुक्रवार को धमकी दी।
- The **United Nations** warned that the risk of **violence spreading regionally** had "never been higher".



संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय स्तर पर हिंसा फैलने का जोखिम "कभी इतना अधिक नहीं हुआ" था।

- **M23 and Rwandan troops seized the city of Goma last week and are now pushing into the neighboring South Kivu province.**

M23 और रवांडा की सेनाओं ने पिछले सप्ताह गोमा शहर पर कब्जा कर लिया और अब वे पड़ोसी साउथ किवू प्रांत में घुस रहे हैं।

- Thousands have died, and huge numbers have been displaced as they have overtaken swathes of the **mineral-rich region**, routing **DRC troops and their allies** in the latest episode of decades-long turmoil in **eastern DRC**.

हजारों लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं क्योंकि उन्होंने **खनिज-संपन्न क्षेत्र** के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और **डीआरसी की सेनाओं और उनके सहयोगियों** को हराया है, जो **पूर्वी डीआरसी** में दशकों पुरानी अशांति की नवीनतम कड़ी है।

- **Congolese forces** were bracing for an assault on the town of **Kavumu**, which hosts an **airport critical to supplying its troops**.

कांगोलीस सेनाएं कावुमू नगर पर हमले की तैयारी कर रही थीं, जो अपनी सेनाओं को आपूर्ति देने के लिए महत्वपूर्ण विमानपत्तन होस्ट करता है।

- **Kavumu** is the last barrier before the **South Kivu provincial capital Bukavu** on the **Rwandan border**, where residents were also on edge.

कावुमू साउथ किवू प्रांतीय राजधानी बुकावू से पहले आखिरी बाधा है, जो रवांडा सीमा पर स्थित है, जहाँ के निवासी भी तनाव में थे।

- "We see some people starting to flee," resident **Aganze Byamungu** said.

निवासी **आगांजे बयामुंगु** ने कहा, "हम कुछ लोगों को भागते हुए देख रहे हैं।"

- **Shops** were barricading their fronts and emptying storerooms for fear of **looting**, while **schools** and **universities suspended classes**.

दुकानें अपने मोर्चे को बैरिकेड कर रही थीं और **लूटपाट** के डर से गोदाम खाली कर रही थीं, जबकि **स्कूलों** और ****विश्वविद्यालयों** ने कक्षाएं निलंबित कर दीं।

- "The **border with Rwanda** is open but almost **impassable** because of the number of people trying to cross. It's **total chaos**," they added.

"रवांडा के साथ **सीमा खुली है** लेकिन पार करने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के कारण यह लगभग **अवरोधित है। यह कुल अराजकता है,**" उन्होंने जोड़ा।

- **Rwandan President Paul Kagame** and **Congolese President Felix Tshisekedi** are due to attend a summit in **Tanzania** on **Saturday** as regional powers try to defuse the crisis.

रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेडी शनिवार को तंजानिया में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियाँ संकट को कम करने की कोशिश कर रही हैं।



TOPICS COVERED (GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

- 1. Five Air India crew members detained at Zurich airport / ज्यूरिख हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के पाँच कर्मी हिरासत में लिए गए**
- 2. TMC to skip Meghalaya tribal council elections / मेघालय में TMC नहीं लड़ेगी जनजातीय परिषद चुनाव**
- 3. Private Bills seek sitting of Parliament for 100 days a year / संसदीय सत्र को 100 दिन अनिवार्य करने के लिए निजी विधेयक पेश**
- 4. Cabinet nod to rejig skilling initiatives with a combined scheme / कैबिनेट ने संयुक्त योजना के तहत कौशल विकास पहलों के पुनर्गठन को मंजूरी दी**



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



5. Major announcements to be made during PM's France visit / प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान की जाएंगी प्रमुख घोषणाएं
6. Did T.N. Governor refer 10 Bills to President to avoid assent, asks SC / क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूरी से बचने के लिए 10 विधेयक राष्ट्रपति को भेजे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
7. China lashes out at U.S. 'coercion' as Panama quits BRI / चीन ने अमेरिका की 'दबाव नीति' पर हमला किया, पनामा ने BRI से हटने का फैसला किया
8. Iran supreme leader criticises proposed nuclear talks with U.S. / ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित परमाणु वार्ता की आलोचना की
9. Trump sanctions ICC for 'illegitimate probes' targeted against Israel, U.S. / ट्रम्प ने इजरायल, अमेरिका के खिलाफ 'अवैध जांच' के लिए ICC पर प्रतिबंध लगाया

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : **9971932488**
Website : patrioticias.in



Five Air India crew members detained at Zurich airport

GS Paper II: IR

Jagriti Chandra
NEW DELHI

Five crew members of Air India were recently put in a detainee cell at the Zurich airport, Switzerland, on the grounds that they were not carrying an authorised crew member certificate (CMC) – a substitute for a visa for flight crew.

Some of them were confined in a cell for detainees for an unspecified duration, according to sources in the airline crew.

A source said the crew members were allowed to step out only to use the toilet and barred from using mobile phones until local



The cell in which Air India crew members were detained at the Zurich airport, Switzerland.

SPECIAL ARRANGEMENT

airline staff intervened.

Air India's official sources said crew members were shifted to a transit hotel and that at least four of them are still in Zurich. The incident occurred be-

cause the crew did not carry a valid CMC. The five had arrived in Zurich on two different flights over the past one week.

'Rules changed'

According to sources, four crew members did not carry the certificate, while a fifth arrived with an invalid CMC. Earlier, the crew could pay 10 Euros and obtain a CMC at the airport, but Zurich changed these rules on February 5.

A CMC is an identification card issued by the International Civil Aviation Organization to facilitate the movement of pilots and cabin crew members.

Five Air India crew members detained at Zurich airport

ज्यूरिख हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के पाँच क्रू मेंबर्स हिरासत में लिए गए

Five crew members of Air India were recently put in a detainee cell at the Zurich airport, Switzerland, as they were not carrying an authorised Crew Member Certificate (CMC), which acts as a substitute for a visa for

flight crew.

एयर इंडिया के पाँच क्रू मेंबर्स को हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे पर हिरासत केंद्र में रखा गया, क्योंकि उनके पास अधिकृत क्रू मेंबर सर्टिफिकेट (CMC) नहीं था, जो कि विज़ा के स्थान पर उपयोग किया जाता है।

- Some of them were confined in a detainee cell for an unspecified duration, according to airline crew sources.

एयरलाइन क्रू सूत्रों के अनुसार, उनमें से कुछ को अनिश्चित अवधि तक हिरासत केंद्र में रखा गया।

- A source said the crew members were allowed to step out only to use the toilet and were barred from using mobile phones until local airline staff intervened.

एक स्रोत के अनुसार, क्रू मेंबर्स को केवल टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई और मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जब तक कि स्थानीय एयरलाइन स्टाफ ने हस्तक्षेप नहीं किया।

- Air India's official sources stated that the crew members were later shifted to a transit hotel and at least four of them are still in Zurich.

एयर इंडिया के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बाद में क्रू मेंबर्स को एक ट्रांज़िट होटल में शिफ्ट किया गया और उनमें से कम से कम चार अभी भी ज्यूरिख में हैं।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- The **incident occurred** because the **crew members did not carry a valid CMC**. The five had arrived in **Zurich on two different flights over the past week**.
यह घटना इस वजह से हुई क्योंकि क्रू मेंबर्स के पास वैध CMC नहीं था। ये पिछले एक सप्ताह में दो अलग-अलग उड़ानों से ज्यूरिख पहुंचे थे।

‘Rules changed’

‘नियम बदले गए’

- According to sources, **four crew members did not carry the certificate, while a fifth arrived with an invalid CMC**.
सूत्रों के अनुसार, चार क्रू मेंबर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि पाँचवां सदस्य एक अमान्य CMC के साथ पहुंचा।
- Earlier, the crew **could pay 10 Euros and obtain a CMC** at the airport, but **Zurich changed these rules on February 5**.
पहले, क्रू 10 यूरो का भुगतान कर हवाई अड्डे पर CMC प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ज्यूरिख ने 5 फरवरी को यह नियम बदल दिया।
- **A CMC (Crew Member Certificate) is an identification card issued by the International Civil Aviation Organization to facilitate the movement of pilots and cabin crew members.**
CMC (क्रू मेंबर सर्टिफिकेट) एक पहचान पत्र है जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा जारी किया जाता है ताकि पायलटों और केबिन क्रू मेंबर्स के आवागमन में सुविधा हो।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



TMC to skip Meghalaya tribal council elections

TMC to skip Meghalaya tribal council elections मेघालय में TMC नहीं लड़ेगी जनजातीय परिषद चुनाव

The Trinamool Congress (TMC), Meghalaya's largest Opposition party, has decided not to contest the elections to two influential tribal councils in the State.

तृणमूल कांग्रेस (TMC), जो मेघालय की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, ने राज्य में दो प्रमुख जनजातीय परिषदों के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

The elections to the Khasi Hills Autonomous District Council and the Jaintia Hills Autonomous District Council are scheduled for February 21. खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव 21 फरवरी को होने हैं।

Senior party leader Mukul M. Sangma said the "ground realities" made the TMC skip the polls across the hills.

वरिष्ठ पार्टी नेता मुकुल एम. संगमा ने कहा कि "जमीनी हकीकत" के कारण TMC ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया।

Mr. Sangma added that it is not necessary for the party to contest the elections as they want to strengthen TMC at the grassroots level.

श्री संगमा ने कहा कि चुनाव लड़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पार्टी ग्रासरूट स्तर पर मजबूत होने पर ध्यान देना चाहती है।

Meghalaya is an important State for the Mamata Banerjee-led TMC beyond West Bengal.

मेघालय, पश्चिम बंगाल से बाहर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है।

The party has five MLAs in the 60-member Assembly, followed by the regional Voice of the People Party with four MLAs and the Congress with one MLA.

60 सदस्यीय विधानसभा में TMC के पांच विधायक हैं, जबकि क्षेत्रीय वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी के चार विधायक और कांग्रेस का एक विधायक है।

GS Paper II:
Autonomous District

GUWAHATI

The Trinamool Congress (TMC), Meghalaya's largest Opposition party, has decided not to contest the elections to two influential tribal councils in the State.

The elections to the Khasi Hills Autonomous District Council and the Jaintia Hills Autonomous District Council are scheduled for February 21.

Senior party leader Mukul M. Sangma said the "ground realities" made the TMC skip the polls across the hills.

"It is not necessary for us to fight the election because we want to strengthen the party at the grassroots level," Mr. Sangma said on Friday.

Meghalaya is an important State for the Mamata Banerjee-led TMC beyond West Bengal.

The party has five MLAs in the 60-member Assembly, followed by the regional Voice of the People Party with four MLAs, and the Congress with one.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



Private Bills seek sitting of Parliament for 100 days a year

GS Paper II: Parliament

NEW DELHI

Senior Opposition members in the Rajya Sabha Derek O'Brien and Manoj Kumar Jha have moved separate Bills seeking to make the sitting of Parliament mandatory at least for 100 days in a year. The leaders said the move is to reform the Parliamentary system by ensuring that the working hours of the House are not lost due to disruptions.

While Mr. O'Brien has proposed a minimum sitting of 100 days, Mr. Jha has sought 120 days sitting of the House annually.

Mr. O'Brien said that while the idea of a fixed calendar was explored by the General Purposes Committee of the Lok Sabha in 1955, the importance of having a minimum number of sittings was highlighted by the National Commission to Review the Working of the Constitution in 2002.

Mr. Jha said his Bill is to

provide a framework for enhancing the performance of Parliament through fixing a minimum number of days of sitting, introducing the provision for extending the hours of a sitting, bringing a short session in addition to the existing three sessions, instituting a mechanism to separately discuss Opposition business and compensating the hours not utilised due to disruptions.

Meanwhile, the Union Education Ministry opposed the introduction of the Coaching Institutes (Accountability and Regulation) Bill, moved by Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) MP Fauzia Khan saying that education is in the Concurrent List and the States would have to regulate the coaching centres.

But when Opposition members insisted that the Bill be introduced, the objection was withdrawn and the Bill introduced in the House.

Purposes Committee of the Lok Sabha in 1955, the importance of having a minimum number of sittings was highlighted by the National Commission to Review the Working of the Constitution in 2002.

श्री ओ'ब्रायन ने बताया कि लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने 1955 में एक निश्चित

Private Bills seek sitting of Parliament for 100 days a year
संसदीय सत्र को 100 दिन अनिवार्य करने के लिए निजी विधेयक पेश

Senior Opposition members in the Rajya Sabha Derek O'Brien and Manoj Kumar Jha have moved separate Bills seeking to make the sitting of Parliament mandatory for at least 100 days in a year.

राज्यसभा में वरिष्ठ विपक्षी सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन और मनोज कुमार झा ने निजी विधेयक पेश किए, जिनमें संसद की बैठकों को कम से कम 100 दिन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है।

• The leaders said the move is to reform the **Parliamentary system** by ensuring that the **working hours** of the House are not lost due to **disruptions**.

नेताओं ने कहा कि यह कदम **संसदीय प्रणाली** में सुधार के लिए है ताकि **अव्यवस्थाओं** के कारण **संसद के कामकाजी घंटे** बर्बाद न हों।

• While **Mr. O'Brien** has proposed a **minimum sitting of 100 days**, **Mr. Jha** has sought **120 days** sitting of the House annually.

श्री ओ'ब्रायन ने **100 दिन** की न्यूनतम बैठक का प्रस्ताव रखा है, जबकि **श्री झा** ने इसे **120 दिन** वार्षिक करने की मांग की है।

• **Mr. O'Brien** said that while the idea of a **fixed calendar** was explored by the **General**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



कैलेंडर की संभावना तलाशी थी, लेकिन 2002 में संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने न्यूनतम बैठकों की अनिवार्यता को रेखांकित किया।

- Mr. Jha said his Bill is to provide a framework for enhancing the performance of Parliament through:

श्री झा ने कहा कि उनका विधेयक संसद के प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु लाया गया है, जिसमें:

- Fixing a minimum number of days of sitting.
न्यूनतम बैठक दिनों को निर्धारित करना।
- Introducing the provision for extending the hours of a sitting.
संसद की बैठक के घंटों को बढ़ाने का प्रावधान जोड़ना।
- Bringing a short session in addition to the existing three sessions.
मौजूदा तीन सत्रों के अतिरिक्त एक छोटा सत्र जोड़ना।
- Instituting a mechanism to separately discuss Opposition business.
विपक्ष के मुद्दों पर अलग से चर्चा करने की व्यवस्था करना।
- Compensating the hours not utilised due to disruptions.
अव्यवस्थाओं के कारण नष्ट हुए समय की भरपाई करना।

Government's Response

सरकार की प्रतिक्रिया

- Meanwhile, the Union Education Ministry opposed the introduction of the Coaching Institutes (Accountability and Regulation) Bill, moved by Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) MP Fauzia Khan, saying that education is in the Concurrent List and the States would have to regulate the coaching centres.

इसी बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद फौजिया खान द्वारा प्रस्तुत कोचिंग संस्थान (जवाबदेही और विनियमन) विधेयक का विरोध किया, यह कहते हुए कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है और राज्यों को कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करना होगा।

- However, when Opposition members insisted that the Bill be introduced, the objection was withdrawn, and the Bill was introduced in the House.

हालांकि, जब विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को पेश करने की मांग की, तो आपत्ति वापस ले ली गई, और विधेयक सदन में पेश कर दिया गया।



Cabinet nod to rejig skilling initiatives with a combined scheme

GS Paper II: Government Scheme

The Hindu Bureau

NEW DELHI

The Union government has decided to restructure its skilling initiatives, combining three of them into the Skill India Programme, a Central Sector scheme, with the Cabinet on Friday approving an outlay of ₹8,800 crore for a three-year period ending in 2025-26.

The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY 4.0), the Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme (PM-NAPS), and the Jan Shikshan Sansthan (JSS) Scheme will now become the three key components of the composite Skill India Programme.

These initiatives aim at providing structured skill development, on-the-job training, and community-based learning, ensuring

These steps aim at providing structured skill development, on-the-job training, and learning

that both urban and rural populations, including marginalised communities, have access to high-quality vocational education, according to an official statement.

More than 2.27 crore people have benefited from these three flagship schemes of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship so far, it added. The programme will directly contribute to the Periodic Labour Force Survey data, ensuring that workforce development policies remain aligned with economic and industrial trends, the statement added.

प्रमुख घटक बन जाएंगी:

- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY 4.0)
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
 - Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme (PM-NAPS)
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
 - Jan Shikshan Sansthan (JSS) Scheme
जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना
- These initiatives aim at providing:
ये पहल निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं:

Cabinet nod to rejig skilling initiatives with a combined scheme

कैबिनेट ने संयुक्त योजना के तहत कौशल विकास पहलों के पुनर्गठन को मंजूरी दी

The Union government has decided to restructure its skilling initiatives, combining three of them into the Skill India Programme, a Central Sector scheme.

केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास पहलों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है, जिसमें तीन योजनाओं को मिलाकर स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाया जाएगा, जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना होगी।

• The Cabinet on Friday approved an outlay of ₹8,800 crore for a three-year period ending in 2025-26.

कैबिनेट ने शुक्रवार को ₹8,800 करोड़ के बजट को 2025-26 तक की तीन-वर्षीय अवधि के लिए मंजूरी दी।

• The following three schemes will now become key components of the Skill India Programme:

निम्नलिखित तीन योजनाएँ अब स्किल इंडिया प्रोग्राम के



- **Structured skill development**
संरचित कौशल विकास
 - **On-the-job training**
कार्यस्थल पर प्रशिक्षण
 - **Community-based learning**
सामुदायिक आधारित शिक्षा
- The programme ensures that **urban and rural populations**, including **marginalised communities**, have access to **high-quality vocational education**.
यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि शहरी और ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से वंचित समुदाय, को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा मिले।
 - More than **2.27 crore people** have benefited from these three **flagship schemes** of the **Ministry of Skill Development and Entrepreneurship** so far.
अब तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इन तीन प्रमुख योजनाओं से 2.27 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
 - The programme will directly contribute to the **Periodic Labour Force Survey data**, ensuring that **workforce development policies** remain aligned with **economic and industrial trends**.
यह कार्यक्रम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के आंकड़ों में सीधे योगदान देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यबल विकास नीतियाँ आर्थिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों के अनुरूप रहें।

Major announcements to be made during PM's France visit

GS Paper II: India-France

Dinakar Peri
NEW DELHI

India and France are set to make major announcements in the areas of defence, small modular reactors (SMR), and aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) and also adopt a France-India road map on artificial intelligence (AI) during Prime Minister Narendra Modi's three-day visit to France early next week.

The deal for 26 Rafale-M fighter jets for the Indian Navy is expected to be announced during the visit and concluded later in India, it has been learnt.

Mr. Modi will arrive in Paris on the evening of February 10 to co-chair the AI Action Summit along with French President Emmanuel Macron and also hold bilateral talks, Foreign Secretary Vikram Misri said



Advancing ties: Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron during a bilateral meeting last year. PTI

on Friday. "AI is bound to have and already having profound impact across all sectors of the economy, polity, society and governance and therefore summits such as the AI Summit is both significant and timely," he stated.

"We will be interested in AI applications that are designed developed, deployed and used in a safe, humane, responsible,

trustworthy manner."

Defence, security, and sovereignty issues will be at the core of the discussions and an interesting announcement will be made during the visit, diplomatic sources said. "There are different stakeholders who can do lots of things. But if you look at recent history and what we can do, there are no competitors in terms of 'Make in India'

and transfer of technology," a source said.

On Monday evening, Mr. Modi will attend the VVIP summit dinner and the AI Action Summit is scheduled to be held in the first half of Tuesday. The bilateral component of the visit will begin in the afternoon of February 11 with a CEO roundtable to be co-chaired by both leaders. After that, Mr. Modi will travel to the south of France to Marseille, where India is opening a consulate.

Bilateral talks are scheduled to take place there followed by a private dinner.

On February 12, Mr. Modi will visit the war cemetery and pay tributes to Indian soldiers who laid down their lives in the First World War. He will also visit Cadarache, the site of the international thermal

nuclear experimental reactor. "The two leaders will pay a visit to Cadarache, which is the site of the international thermal nuclear experimental reactor, which is a high science project in which India is a partner with few other countries," Mr. Misri stated.

In addition to the Rafale-M fighter deal, the deal for three additional Scorpene-class diesel-electric submarines is also in advanced stages and is likely to be concluded in the next couple of months. Together, the deals are worth around \$10 billion-\$11 billion. In addition, the two countries are in the advanced stages of talks for the co-design and co-development of a 110 KN aero engine to power India's fifth generation fighter, Advanced Medium Combat Aircraft, that is under

development.

The AI summit will see the launch of an AI foundation for various projects on governance and inclusivity, sources said. We need to bring some ethics into the governance of AI, the sources added. India was one of the first countries to confirm participation in the AI summit, diplomatic sources said.

Along with developments and cooperation in the Indo-Pacific, the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) will be a key focus area during the bilateral talks, diplomatic sources said, noting that France is the only major country to set up a special envoy for IMEC.

There is also focus on people-to-people exchanges and France has set a target of having 30,000 Indian students in France by 2030, sources added.



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



Major announcements to be made during PM's France visit प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान की जाएंगी प्रमुख घोषणाएं

India and France Set to Make Major Announcements During PM Modi's Visit

भारत और फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान बड़े ऐलान करने के लिए तैयार

- **India and France** are set to make major announcements in the areas of **defence, small modular reactors (SMR), and aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO)** during **Prime Minister Narendra Modi's three-day visit to France** early next week.
भारत और फ्रांस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन दिन की यात्रा के दौरान रक्षा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) और विमान रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) के क्षेत्रों में बड़े ऐलान करने के लिए तैयार हैं।
- The deal for **26 Rafale-M fighter jets** for the **Indian Navy** is expected to be announced during the visit and concluded later in India.
भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-M लड़ाकू विमान का सौदा यात्रा के दौरान घोषित किया जाएगा और बाद में भारत में संपन्न होगा।
- **PM Modi** will arrive in **Paris** on the evening of **February 10** to co-chair the **AI Action Summit** along with **French President Emmanuel Macron** and also hold bilateral talks.
प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ **AI एक्शन समिट** की सह-अध्यक्षता करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।
- **AI** is bound to have a profound impact across all sectors of the **economy, polity, society, and governance**, and therefore summits like the **AI Summit** are significant and timely.
AI का अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और शासन के सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, और इसलिये **AI समिट** जैसे शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण और समयानुकूल हैं।
- The discussions will focus on **defence, security, and sovereignty issues**, with an interesting announcement expected during the visit.
वार्ता का मुख्य ध्यान **रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता** के मुद्दों पर होगा, और यात्रा के दौरान एक दिलचस्प घोषणा की उम्मीद है।
- **Mr. Modi** will attend the **VVIP summit dinner on Monday evening** and the **AI Action Summit** is scheduled for the first half of **Tuesday**.
प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को **VVIP शिखर सम्मेलन रात्रिभोज** में शामिल होंगे और **AI एक्शन समिट मंगलवार** के पहले आधे दिन में आयोजित होगा।
- **Bilateral talks** will begin on **February 11**, starting with a **CEO roundtable** co-chaired by both leaders.
द्विपक्षीय वार्ता 11 फरवरी को शुरू होगी, जिसमें दोनों नेता **CEO राउंडटेबल** की सह-अध्यक्षता करेंगे।
- **Mr. Modi** will travel to **Marseille, France**, to open an **Indian consulate**, with further bilateral talks and a private dinner scheduled.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए यात्रा करेंगे, जहां और द्विपक्षीय वार्ता और निजी रात्रिभोज की योजना बनाई गई है।

- **On February 12, Mr. Modi will visit the war cemetery to pay tributes to Indian soldiers who laid down their lives in World War I.**

12 फरवरी को, प्रधानमंत्री मोदी युद्ध कब्रिस्तान में जाकर पहली विश्व युद्ध में जान गवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

- **The AI summit will see the launch of an AI foundation for various projects on governance and inclusivity.**

AI समिट में शासन और समावेशिता पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए AI फाउंडेशन की शुरुआत होगी।

- **The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) will be a key focus area during the bilateral talks.**

भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एक प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र होगा।

- **France has set a target of having 30,000 Indian students in France by 2030.**

फ्रांस ने 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- **The nuclear experimental reactor at Cadarache will be visited by both leaders, where India is a partner in the international thermal nuclear experimental reactor project.**

दोनों नेता कडाराच में स्थित न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का दौरा करेंगे, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में साझेदार है।

- **In addition to the Rafale-M fighter deal, a deal for three additional Scorpene-class submarines is also in advanced stages.**

राफेल-M लड़ाकू विमान सौदे के अतिरिक्त, तीन अतिरिक्त स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियों के लिए सौदा भी उन्नत चरण में है।

- **The total value of these deals is around \$10 billion-\$11 billion.**

इन सौदों की कुल कीमत लगभग \$10 बिलियन-\$11 बिलियन है।

- **India and France are in advanced stages of talks for the co-design and co-development of a 110 KN aero engine to power India's fifth generation fighter aircraft.**

भारत और फ्रांस 110 KN एरो इंजन के सह-डिजाइन और सह-विकास के लिए उन्नत चरण में हैं, जो भारत के पाँचवें पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेगा।



Did T.N. Governor refer 10 Bills to President to avoid assent, asks SC

Bench asks A-G if Ravi referred the re-passed Bills to the President only to circumvent the procedure under Article 200; the Governor had sat on 12 Bills sent by Legislature between 2020 and 2023, following which T.N. govt. approached the court

GS Paper II: Center State Relations

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday questioned whether Tamil Nadu Governor R.N. Ravi referred 10 Bills re-passed by the State Legislature to the President to avoid having to give his consent to them.

A Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan asked Attorney-General of India R. Venkataramani if the Governor had referred the re-passed Bills to the President for consideration only to circumvent the procedure under the first proviso of Article 200 (Governor's assent of Bills) of the Constitution.

Under Article 200, a Governor has three options when Bills are sent to him for assent - give assent, withhold assent, or refer the Bills to the President for consideration.

The Tamil Nadu government has argued that a Governor can refer a Bill to the President only in case of any 'repugnancy' under Article 254, that is, if the proposed State law is found to be inconsistent with or encroaches into an existing Central law or if



Continuing tussle: Tamil Nadu Governor R.N. Ravi, right, with Chief Minister M.K. Stalin at the Raj Bhavan. R. RAGU

the Bill tends to derogate the Constitutional powers of the State High Court.

Under the first proviso of Article 200, if the Governor chooses to withhold assent to a Bill, he has to return it as soon as possible to the House with a "message" to reconsider the proposed law or specified provisions or suggest amendments.

If the House reiterates the Bill and presents it to the Governor, the "Governor shall not withhold as-

sent". In short, the proviso makes it clear that the Governor has to grant consent.

V-C appointments

In Tamil Nadu's case, originally 12 Bills, mostly dealing with appointments of Vice-Chancellors to State universities, were sent by the State Legislature for consent to the Governor between January 2020 and April 2023.

The Governor had sat on them. Ultimately, when

the State approached the top court against the Governor's perceived inaction in November 2023, the latter had referred two of the Bills to the President and proceeded to withhold consent on the remaining 10.

Subsequently, the State Assembly re-passed the 10 Bills in a special session within days and returned them to the Governor for his assent. The State argued in the top court that it was following procedure under the first proviso of Article 200. The Governor had proceeded to refer all 10 Bills to the President for consideration. The President had subsequently assented to one Bill, rejected seven and not considered the remaining two proposed laws.

"Having taken a conscious decision to withhold assent, can the Governor take the third choice and refer the Bills to the President? Having withheld assent, can he try to overcome the first proviso procedure by referring to the President? If he withholds assent, the procedure under the first proviso would have to be followed..." Justice Pardi-

wala addressed the A-G.

Mr. Venkataramani argued that the Governor, having withheld consent to the Bills, had not asked the State Assembly to re-consider them. The procedure under the first proviso of Article 200 did not cover a situation when a proposed law is found to be repugnant by the Governor.

"What you are saying is that the first proviso covers only small issues like suggestions and amendments to the Bills sent for assent. On the other hand, if a Bill is found to be repugnant, then the first proviso is completely out of play. The procedure of the first proviso does not kick in... In this case, when the State Legislature unilaterally re-enacted these 10 Bills and sent them back to the Governor, but there was no question of you according consent now," Justice Pardiwala summed up Mr. Venkataramani's submissions in defence of the Governor.

Mr. Venkataramani said the 'message' in the first proviso did not contemplate repugnancy.

The court posted the case for a final day's hearing on February 10.

Did T.N. Governor refer 10 Bills to President to avoid assent, asks SC

क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूरी से बचने के लिए 10 विधेयक राष्ट्रपति को भेजे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा



Bench asks A-G if Ravi referred the re-passed Bills to the President only to circumvent the procedure under Article 200; the Governor had sat on 12 Bills sent by Legislature between 2020 and 2023, following which T.N. govt. approached the court

Supreme Court Questions Tamil Nadu Governor's Actions on Referred Bills

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के संदर्भित विधेयकों पर उठाए सवाल

- **The Supreme Court on Friday** questioned whether **Tamil Nadu Governor R.N. Ravi** referred **10 Bills repassed by the State Legislature** to the **President** to avoid having to give his consent to them.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह सवाल उठाया कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास इस लिए भेजा ताकि उन्हें अपनी स्वीकृति न देनी पड़े।

- A **Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan** asked **Attorney-General of India R. Venkataramani** if the **Governor** had referred the re-passed **Bills** to the **President** for consideration only to circumvent the procedure under the first proviso of **Article 200 (Governor's assent of Bills)** of the **Constitution**.

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर.

वेन्कटरमणी से पूछा कि क्या राज्यपाल ने पुनः पारित विधेयकों को केवल संविधान के अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति) के पहले प्रावधान की प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा।

- Under **Article 200**, a **Governor** has three options when **Bills** are sent to him for **assent** – **give assent, withhold assent, or refer the Bills to the President** for consideration.

अनुच्छेद 200 के तहत, जब विधेयकों को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं - स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, या विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना।

- The **Tamil Nadu government** has argued that a **Governor** can refer a **Bill to the President** only in case of any '**repugnancy**' under **Article 254**, that is, if the proposed **State law** is found to be inconsistent with or encroaches into an existing **Central law** or if the **Bill** tends to derogate the **Constitutional powers** of the **State High Court**.

तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया है कि राज्यपाल केवल अनुच्छेद 254 के तहत किसी 'विरोधाभास' की स्थिति में ही विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, अर्थात यदि प्रस्तावित राज्य कानून मौजूदा केंद्रीय कानून के साथ असंगत पाया जाता है या यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

- Under the first proviso of **Article 200**, if the **Governor** chooses to **withhold assent** to a **Bill**, he has to return it as soon as possible to the House with a "message" to reconsider the proposed law or specified provisions or suggest amendments.

अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के तहत, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति रोकते हैं, तो उन्हें इसे जल्द से जल्द संसद को वापस भेजना होता है, साथ ही एक "संदेश" देना होता है ताकि



प्रस्तावित कानून या विशेष प्रावधानों पर पुनः विचार किया जा सके या संशोधन का सुझाव दिया जा सके।

- If the **House** reiterates the **Bill** and presents it to the **Governor**, the “**Governor shall not withhold assent.**”

यदि संसद विधेयक को फिर से प्रस्तुत करती है और उसे राज्यपाल के पास भेजती है, तो

“राज्यपाल को स्वीकृति रोकने का अधिकार नहीं होता।”

- In **Tamil Nadu’s case**, originally **12 Bills**, mostly dealing with **appointments of Vice-Chancellors to State universities**, were sent by the **State Legislature** for consent to the **Governor** between **January 2020** and **April 2023**.

तमिलनाडु के मामले में, मूल रूप से 12 विधेयक, जो मुख्यतः राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित थे, राज्य विधानमंडल ने जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजे थे।

- The **Governor** had sat on them. Ultimately, when the **State** approached the top court against the **Governor’s perceived inaction** in **November 2023**, the latter had referred **two of the Bills to the President** and proceeded to withhold consent on the remaining **10**.

राज्यपाल ने इन पर कोई निर्णय नहीं लिया। अंततः, जब राज्य ने राज्यपाल की मानी गई निष्क्रियता के खिलाफ नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय का रुख किया, तब राज्यपाल ने दो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा और बाकी 10 विधेयकों पर स्वीकृति रोक दी।

- Subsequently, the **State Assembly** re-passed the **10 Bills** in a **special session** within days and returned them to the **Governor** for his **assent**.

इसके बाद, राज्य विधानसभा ने 10 विधेयकों को विशेष सत्र में कुछ ही दिनों में पुनः पारित किया और उन्हें राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया।

- The **State** argued in the top court that it was following procedure under the first proviso of **Article 200**.

राज्य ने उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया कि वह अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के तहत प्रक्रिया का पालन कर रहा था।

- The **Governor** had proceeded to refer all **10 Bills** to the **President** for consideration. The **President** had subsequently assented to **one Bill**, rejected **seven**, and not considered the remaining **two proposed laws**.

राज्यपाल ने सभी 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था। इसके बाद, राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर स्वीकृति दी, सात विधेयकों को अस्वीकार किया और बाकी के दो प्रस्तावित कानूनों पर विचार नहीं किया।

- Justice **Pardiwala** addressed the **A-G** asking, “Having taken a conscious decision to withhold assent, can the **Governor** take the third choice and refer the Bills to the **President**?”

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अटॉर्नी जनरल से यह सवाल पूछा, “स्वीकृति रोकने का सचेत निर्णय लेने के बाद, क्या राज्यपाल तीसरे विकल्प के तहत विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं?”

- **Mr. Venkataramani** argued that the **Governor**, having withheld consent to the **Bills**, had not asked the **State Assembly** to reconsider them.



वेनकटरामणि ने तर्क किया कि राज्यपाल, जिन्होंने विधेयकों पर स्वीकृति रोक दी थी, ने राज्य विधानसभा से उन्हें पुनः विचार करने का अनुरोध नहीं किया।

- The procedure under the first proviso of **Article 200** did not cover a situation when a proposed law is found to be **repugnant** by the **Governor**.

अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के तहत वह स्थिति नहीं आती जब प्रस्तावित कानून राज्यपाल द्वारा विरोधाभासी पाया जाता है।

- The **Court** posted the case for a **final day's hearing on February 10**.

अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है।

China lashes out at U.S. 'coercion' as Panama quits BRI

GS Paper II: China

Associated Press

BEIJING

China on Friday lashed out at what it called U.S. "coercion" after Panama declined to renew a key infrastructure agreement with Beijing following Washington's threat to take back the Panama Canal.

Foreign Ministry spokesperson Lin Jian said at a briefing that China "firmly opposes the U.S. smearing and undermining the Belt and Road cooperation through means of pressure and coercion."

The Belt and Road Initiative is President Xi Jinp-

ing's signature foreign police drive to bind China closer to countries in the region and beyond by building roads, railways, airports, power plants and other infrastructure.

Panama's decision to walk away from it was seen as a concession to the U.S. over the canal after U.S. Secretary of State Marco Rubio warned Panamanian leader José Raúl Mulino on Sunday that Panama must immediately reduce what President Donald Trump says is 'Chinese influence' over the canal area or face potential retaliation from the U.S..

China lashes out at U.S. 'coercion' as Panama quits BRI

चीन ने अमेरिका की 'दबाव नीति' पर हमला किया, पनामा ने BRI से हटने का फैसला किया

China on Friday criticized U.S. "coercion" after Panama decided not to renew an infrastructure agreement with Beijing following U.S. threats regarding the Panama Canal.

शुक्रवार को चीन ने अमेरिका की "दबाव नीति" की आलोचना की, जब पनामा ने बीजिंग के साथ एक प्रमुख बुनियादी ढांचा समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जो अमेरिका के पनामा नहर को वापस लेने की धमकी के बाद हुआ।

- Foreign Ministry spokesperson Lin Jian stated that China firmly opposes U.S. pressure in undermining the Belt and Road Initiative (BRI).



चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन, अमेरिका द्वारा "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)" को कमजोर करने के दबाव का कड़ा विरोध करता है।

The Belt and Road Initiative (BRI)

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

- BRI is President Xi Jinping's key foreign policy to strengthen China's ties with other countries by developing roads, railways, airports, power plants, and other infrastructure.

BRI राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक प्रमुख विदेश नीति है, जिसका उद्देश्य सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और अन्य बुनियादी ढांचे बनाकर चीन को अन्य देशों के करीब लाना है।

- Panama's withdrawal from BRI is seen as a concession to the U.S. following pressure over the Panama Canal.

पनामा का BRI से हटना अमेरिका को रियायत देने के रूप में देखा जा रहा है, जो पनामा नहर पर दबाव के बाद हुआ।

U.S. pressure on Panama

पनामा पर अमेरिका का दबाव

- U.S. Secretary of State Marco Rubio warned Panamanian leader José Raúl Mulino on Sunday that Panama must immediately reduce Chinese influence over the Panama Canal or face retaliation from the U.S.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को पनामा के नेता जोस राउल मुलिनो को चेतावनी दी कि पनामा को तुरंत पनामा नहर पर चीनी प्रभाव कम करना होगा, अन्यथा अमेरिका की ओर से संभावित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

- Former U.S. President Donald Trump has also raised concerns over China's involvement in the Panama Canal area.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पनामा नहर क्षेत्र में चीन की भागीदारी को लेकर चिंता जताई है।



Iran supreme leader criticises proposed nuclear talks with U.S.

GS Paper II: West Asia



AFP

Iran's supreme leader said negotiations with the U.S. "are not intelligent or honorable" after Donald Trump floated nuclear talks with Tehran. Ayatollah Ali Khamenei also suggested "there should be no negotiations with such a government," but stopped short of issuing a direct order not to engage with the U.S. AFP

अमेरिका के साथ वार्ता "बुद्धिमान या सम्मानजनक नहीं हैं" जब डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ परमाणु वार्ता का प्रस्ताव रखा।

- Ayatollah Ali Khamenei also suggested "there should be no negotiations with such a government," but stopped short of issuing a direct order not to engage with the U.S. आयतोल्ला अली खामेनेई ने यह भी सुझाव दिया कि "ऐसी सरकार के साथ कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए," लेकिन उन्होंने अमेरिका से जुड़ने पर प्रत्यक्ष आदेश देने से परहेज किया।

Iran supreme leader criticises proposed nuclear talks with U.S.

ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित परमाणु वार्ता की आलोचना की

Iran's Supreme Leader Rejects Nuclear Talks with the U.S.

ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को नकारा

- Iran's Supreme Leader said negotiations with the U.S. "are not intelligent or honorable" after Donald Trump floated nuclear talks with Tehran.

ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि



Trump sanctions ICC for 'illegitimate probes' targeted against Israel, U.S.

Curbs include asset freezes and travel bans against ICC officials, employees and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's probe; The Hague-based court vows to continue providing justice around the world

GS Paper II:
International
Organizations

U.S. President Donald Trump imposed sanctions on the International Criminal Court for probes targeting America and its ally Israel, but the ICC on Friday vowed to continue providing "justice and hope" around the world.

Mr. Trump signed an executive order on Thursday saying the court in The Hague had "abused its power" by issuing an arrest warrant for visiting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President in



Behavioural pattern: Previous sanctions by the U.S. under President Donald Trump had targeted the court's prosecutor. AP

Washington on Tuesday.

He ordered asset freezes and travel bans against ICC officials, employees and their family members,

along with anyone deemed to have helped the court's investigations.

The ICC on Friday condemned the move, which

it said sought to "harm its independent and impartial judicial work". "The Court stands firmly by its personnel and pledges to continue providing justice and hope to millions of innocent victims of atrocities across the world," it said in a statement.

The United Nations said it deeply regretted Mr. Trump's decision to slap sanctions on the ICC and urged him to reverse the move.

The names of the individuals affected by the sanctions were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Mr. Trump had targeted the

court's prosecutor.

Mr. Trump's order said the tribunal had engaged in "illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel," referring to ICC probes into alleged war crimes by U.S. service members in Afghanistan and Israeli troops in Gaza.

Israel's Foreign Minister Gideon Sa'ar applauded Mr. Trump on Friday over the sanctions, calling the court's actions against Israel illegitimate.

Neither the U.S. nor Israel are members of the court. The EU warned the move was a threat to its independence.

Trump sanctions ICC for 'illegitimate probes' targeted against Israel, U.S.

ट्रम्प ने इजरायल, अमेरिका के खिलाफ 'अवैध जांच' के लिए ICC पर प्रतिबंध लगाया

U.S. Imposes Sanctions on International Criminal Court

अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए

- U.S. President Donald Trump imposed sanctions on the International Criminal Court for probes targeting America and its ally Israel, but the ICC on Friday vowed to continue providing "justice and hope" around the world.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और उसके साथी इजरायल को लक्षित करने वाली जांचों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन शुक्रवार को ICC ने दुनिया भर में "न्याय और आशा" प्रदान करने की कसम खाई।



- **Trump signed an executive order on Thursday** saying the court in **The Hague** had “abused its power” by issuing an **arrest warrant** for visiting Israeli Prime Minister **Benjamin Netanyahu**, who held talks with the U.S. President in **Washington** on **Tuesday**.

ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा कि द हेग में स्थित न्यायालय ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर “अपनी शक्ति का दुरुपयोग” किया, जो मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे।

- **Trump ordered asset freezes and travel bans** against **ICC officials**, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court’s investigations.

ट्रंप ने ICC अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ संपत्ति की नाकामी और यात्रा प्रतिबंध लगाए, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी जो अदालत की जांच में मदद करने के लिए जिम्मेदार माने गए थे।

- The ICC on Friday condemned the move, saying it sought to “**harm its independent and impartial judicial work.**”

शुक्रवार को ICC ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह “इसके स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक कार्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है।”

- **The ICC** pledged to continue providing **justice and hope** to millions of **innocent victims of atrocities across the world.**

ICC ने दुनिया भर में लाखों निर्दोष पीड़ितों को न्याय और आशा प्रदान करने की कसम खाई।

- The **United Nations** said it deeply regretted Mr. Trump’s decision to impose sanctions on the ICC and urged him to reverse the move.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसे ट्रंप के ICC पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरा खेद है और उनसे इसे पलटने का आग्रह किया।

- The names of the individuals affected by the sanctions were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Mr. Trump had targeted the court’s **prosecutor.**

प्रतिबंधों से प्रभावित व्यक्तियों के नाम तुरंत जारी नहीं किए गए, लेकिन ट्रंप के तहत पिछले अमेरिकी प्रतिबंधों ने अदालत के अभियोजक को लक्षित किया था।

- **Mr. Trump’s order** said the tribunal had engaged in “**illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel,**” referring to ICC probes into alleged **war crimes** by U.S. service members in **Afghanistan** and **Israeli troops** in **Gaza.**

ट्रंप के आदेश में कहा गया कि न्यायालय ने “अवैध और आधारहीन क्रियाएं कीं जो अमेरिका और हमारे करीबी सहयोगी इज़राइल को लक्षित करती हैं,” जो ICC की जांचों का जिक्र कर रहा था जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और गाजा में इजरायली सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों पर आधारित थीं।

- **Israel’s Foreign Minister Gideon Saar** applauded Mr. Trump on Friday over the sanctions, calling the court’s actions against Israel illegitimate.

इज़राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने शुक्रवार को ट्रंप की प्रतिबंधों के लिए सराहना की, और कहा कि अदालत के इज़राइल के खिलाफ कार्य अवैध हैं।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- Neither the **U.S. nor Israel** are members of the court.
अमेरिका और इज़राइल दोनों ही अदालत के सदस्य नहीं हैं।
- The **EU** warned the move was a threat to its **independence**.
यूरोपीय संघ (EU) ने चेतावनी दी कि यह कदम इसके स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



International Criminal Court (ICC)

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)

Basic Information

मूल जानकारी

- **Established: 1 July 2002** (under the Rome Statute)
स्थापना: 1 जुलाई 2002 (रोम संविधि के तहत)
- **Headquarters: The Hague, Netherlands**
मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड्स
- **Official Languages: English & French**
आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेज़ी और फ्रेंच
- **Jurisdiction: Crimes against humanity, war crimes, genocide, and crimes of aggression**
अधिकार क्षेत्र: मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार, और आक्रमण अपराध
- **Current President (2024): Piotr Hofmański (Poland)**
वर्तमान अध्यक्ष (2024): पियोट्र होफमान्स्की (पोलैंड)
- **Chief Prosecutor (2024): Karim Khan (UK)**
मुख्य अभियोजक (2024): करीम खान (यूके)
- **Member States: 124 countries (As of 2024)**
सदस्य देश: 124 देश (2024 तक)

Background & Historical Context

पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक संदर्भ

- The **Rome Statute** was adopted on **17 July 1998**, and the ICC came into effect on **1 July 2002**.
रोम संविधि को 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था, और ICC 1 जुलाई 2002 को प्रभावी हुआ।
- It is the **world's first permanent international criminal tribunal**.
यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है।
- The ICC is **not a part of the United Nations (UN)** but has a cooperative relationship with it.
ICC संयुक्त राष्ट्र (UN) का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ सहयोगात्मक संबंध रखता है।

Key Functions & Jurisdiction

प्रमुख कार्य और क्षेत्राधिकार

1. **Genocide (नरसंहार):**



- Acts intended to destroy a national, ethnic, racial, or religious group.
- उद्देश्यपूर्ण रूप से किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह का विनाश।
2. **Crimes Against Humanity (मानवता के खिलाफ अपराध):**
 - Widespread or systematic attacks against civilians.
 - नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर या व्यवस्थित हमले।
3. **War Crimes (युद्ध अपराध):**
 - Violations of the Geneva Conventions (e.g., killing prisoners of war).
 - जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन (जैसे युद्धबंदियों की हत्या)।
4. **Crime of Aggression (आक्रमण अपराध):**
 - Illegal use of military force by one state against another.
 - एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के खिलाफ अवैध सैन्य बल का उपयोग।

Limitations & Criticism

सीमाएँ और आलोचनाएँ

- **USA, China, India, and Russia are NOT members.**
अमेरिका, चीन, भारत, और रूस सदस्य नहीं हैं।
- **The ICC cannot prosecute non-member states unless referred by the UN Security Council.**
ICC गैर-सदस्य देशों पर मुकदमा नहीं चला सकता, जब तक कि इसे UN सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित न किया जाए।
- **Some African nations have accused the ICC of targeting only African leaders.**
कुछ अफ्रीकी देशों ने ICC पर केवल अफ्रीकी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

Recent Developments

हाल की घटनाएँ

1. **Warrant Against Russian President Vladimir Putin (2023)**
 - In March 2023, the ICC issued an **arrest warrant against Russian President Vladimir Putin** for war crimes related to the Ukraine conflict.
 - मार्च 2023 में, ICC ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन संघर्ष से जुड़े युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
2. **Israel-Palestine Conflict Investigation (2024)**
 - The ICC is investigating alleged war crimes committed by both Israel and Hamas.
 - ICC इज़राइल और हमास दोनों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है।
3. **India's Stand on ICC**
 - India has **not signed or ratified the Rome Statute**, arguing that **national sovereignty should not be compromised**.



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं किया है, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

TOPICS COVERED (GS Paper III: Economy, Science & Technology, Environment, Disaster Management, Internal Security)

1. Growth push: RBI cuts rate by 0.25% / विकास को बढ़ावा: RBI ने दर में 0.25% की कटौती की

2. First GBS case reported in Mumbai; 180 cases in State / मुंबई में पहली GBS बीमारी का मामला दर्ज; राज्य में 180 मामले

3. Growth over inflation / मुद्रास्फीति पर विकास को प्राथमिकता

4. A Surge of Dead Sea Turtles in the Sand / रेत में मृत समुद्री कछुओं की बाढ़

5. 21 MPs write to Shah seeking update on Naga peace process / 21 सांसदों ने शाह को नागा शांति प्रक्रिया पर अपडेट देने के लिए पत्र लिखा

6. Centre holds consultation with States on setting up biomanufacturing facilities / केंद्र ने जैव-निर्माण सुविधाओं की स्थापना पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया

7. Budget's focus on vegetables, fruits and pulses is a positive for inflation: RBI Governor / बजट का सब्जियों, फलों और दालों पर ध्यान देना मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक: आरबीआई गवर्नर

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Growth push: RBI cuts rate by 0.25%

First repo rate cut since May 2020 may translate into cheaper home and car loans; follows Budget initiatives to boost consumption with IT breaks


GS Paper III: Repo Rate

Lalendu Mishra
 MUMBAI

Lowering India's interest rates for the first time in the last 57 months, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India on Friday unanimously cut the repo rate by 25 basis points (bps) to 6.25%, to support fading growth in the hope of inflation easing to 4.4% in this quarter and 4.2% through 2025-26.

The RBI's policy shift, which may translate into cheaper loans for homes, cars and other purposes, comes within a week of the Union Budget for 2025-26 that seeks to drive growth by stimulating urban demand with income tax breaks worth ₹1 lakh crore.

The repo rate is the rate at which the RBI lends to



other banks, and one basis point equals 0.01%. This is the first repo rate cut since the early days of the COVID-19 pandemic, when the RBI made a 40 bps cut to 4% in May 2020 and held it there for a couple of years. Since 2022, the repo rate has been on the rise.

In view of the risks from global uncertainties and upside risks to inflation,

the MPC persisted with a neutral monetary policy, and stayed "unambiguously focussed on a durable alignment of inflation with the target, while supporting growth," RBI Governor Sanjay Malhotra said.

CONTINUED ON

» **PAGE 10**

GROWTH OVER INFLATION

» **PAGE 8**

Growth push: RBI cuts rate by 0.25%

विकास को बढ़ावा: RBI ने दर में 0.25% की कटौती की

Lowering India's interest rates for the first time in 57 months, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) on Friday unanimously cut the repo rate by 25 basis points (bps) to 6.25%.

भारत की ब्याज दरों को 57 महीनों में पहली बार घटाते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 आधार अंक (bps) घटाकर 6.25% कर

दिया।

- This decision aims to support **fading growth** in the hope of **inflation easing to 4.4% in this quarter** and **4.2% through 2025-26**.

यह निर्णय **कमजोर होती विकास दर** को समर्थन देने के लिए लिया गया है, इस उम्मीद में कि **मुद्रास्फीति इस तिमाही में 4.4% और 2025-26 तक 4.2% पर आ जाएगी।**

- The RBI's **policy shift** may lead to **cheaper loans** for homes, cars, and other purposes.

RBI की नीतिगत बदलाव से घर, कार और अन्य जरूरतों के लिए सस्ते ऋण मिलने की संभावना है।

- The decision follows the **Union Budget for 2025-26**, which aims to boost **growth** by **stimulating urban demand** with income tax breaks worth ₹1 lakh crore.



यह निर्णय 2025-26 के केंद्रीय बजट के बाद आया है, जो ₹1 लाख करोड़ के आयकर छूट के माध्यम से शहरी मांग को बढ़ाकर विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

- The **repo rate** is the rate at which **RBI lends to other banks**, and **one basis point equals 0.01%**.

रेपो दर वह दर है जिस पर RBI अन्य बैंकों को उधार देता है, और एक आधार अंक (bps) 0.01% के बराबर होता है।

- This is the **first repo rate cut since May 2020**, when the **RBI reduced the rate by 40 bps to 4%** during the **COVID-19 pandemic**.

यह मई 2020 के बाद पहली बार है जब RBI ने रेपो दर में कटौती की है। महामारी के दौरान RBI ने इसे 40 आधार अंक घटाकर 4% कर दिया था।

- Since **2022**, the **repo rate had been rising**, but now it has been cut to **support economic growth**.

2022 से, रेपो दर में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब इसे आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए घटा दिया गया है।

- Considering risks from **global uncertainties and inflation**, the **MPC has maintained a neutral monetary policy**.

वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों को देखते हुए, MPC ने तटस्थ मौद्रिक नीति बनाए रखी है।

- RBI Governor **Sanjay Malhotra** stated that the **focus remains on sustainable inflation control while supporting growth**.

RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित करने और विकास को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Mudumalai Tiger Reserve

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

- Mudumalai Tiger Reserve, located in the **Nilgiris district of Tamil Nadu**, is a **significant protected area in India**.

- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में स्थित है, भारत का एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है।

- **Established in 1940**, it is **one of the country's oldest wildlife sanctuaries**.

- **1940 में स्थापित**, यह देश के सबसे पुराने वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है।

- The reserve spans **approximately 321 square kilometers** and **is part of the Nilgiri Biosphere Reserve, the first biosphere reserve in India**.



• यह अभयारण्य लगभग 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है।

• Mudumalai **shares its boundaries with Karnataka's Bandipur National Park and Kerala's Wayanad Wildlife Sanctuary**, forming a critical corridor for wildlife movement in the Western Ghats.

• मुदुमलाई की सीमाएँ कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क और केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से मिलती हैं, जिससे पश्चिमी घाट में वन्यजीवों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनता है।

Flora and Fauna

वनस्पति और जीव-जंतु

• The reserve's **diverse habitats** include **tropical moist deciduous forests, dry deciduous forests, and grasslands**, supporting a rich array of flora and fauna.

• इस अभयारण्य के विविध आवासों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को समर्थन देते हैं।

• It is home to several endangered species, notably the **Bengal tiger, Indian elephant, and Indian leopard**.

• यह कई संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है, विशेष रूप से बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी और भारतीय तेंदुआ।

• Other notable species include **gaur (Indian bison), chital (spotted deer), and a variety of bird species**, making it a **biodiversity hotspot**.

• अन्य प्रमुख प्रजातियों में गौर (भारतीय बाइसन), चीतल (चितीदार हिरण) और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं, जिससे यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बनता है।

Recent Conservation Challenges

हाल के संरक्षण संबंधी चुनौतियाँ

• In **October 2023**, reports indicated that **forest officials installed CCTV cameras** at over **40 locations** within the reserve following the **deaths of 10 tigers** over a span of **45 days**.

• अक्टूबर 2023 में, रिपोर्टों के अनुसार, वन अधिकारियों ने 40 से अधिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्योंकि 45 दिनों में 10 बाघों की मृत्यु हुई थी।

• Investigations revealed that at least **two of these tigers were poisoned**, leading to the **arrest of an individual in connection with the incident**.

• जांच से पता चला कि इनमें से कम से कम दो बाघों को जहर दिया गया था, जिससे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- In August 2024, two female Asiatic wild dogs (dholes) were found dead under suspicious circumstances in the buffer zone of the reserve.
- अगस्त 2024 में, दो मादा एशियाई जंगली कुत्ते (डोल्स) रिजर्व के बफर ज़ोन में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए।

Monetary Policy Committee (MPC):

- Before MPC's inception, the Governor of the Reserve Bank of India (RBI) solely determined key interest rates, leading to tensions between the government and RBI during periods of low growth and high inflation.
- MPC की स्थापना से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर अकेले ही प्रमुख ब्याज दरों का निर्धारण करते थे, जिससे कम विकास और उच्च मुद्रास्फीति के समय सरकार और RBI के बीच तनाव उत्पन्न होता था।
- In 2016, the Reserve Bank of India Act, 1934, was amended to establish the MPC, introducing a collective decision-making approach to monetary policy.
- 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया, जिससे MPC की स्थापना हुई और मौद्रिक नीति में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया लागू की गई।
- Composition of the MPC
- MPC की संरचना
- The MPC comprises six members:
- MPC में कुल छह सदस्य होते हैं:
 - Three officials from RBI:
 - RBI के तीन अधिकारी:
 - The Governor of the RBI, who serves as the ex-officio chairperson.
 - RBI के गवर्नर, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं।
 - The Deputy Governor overseeing monetary policy.
 - मौद्रिक नीति की देखरेख करने वाले डिप्टी गवर्नर।
 - One RBI officer nominated by the Central Board of the RBI.
 - RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी।
 - Three external members nominated by the Government of India, each serving a four-year term.
 - भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य, जिनका कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
- This balanced structure ensures a blend of internal expertise and external perspectives in policy formulation.
- यह संतुलित संरचना नीति निर्माण में आंतरिक विशेषज्ञता और बाहरी दृष्टिकोण का समावेश सुनिश्चित करती है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



• Functioning and Decision-Making Process

• कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया

• The MPC meets at least four times a year.

• MPC वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करती है।

• Each member has an **equal vote**, and in the case of a **tie**, the **RBI Governor** exercises a **casting vote**.

• प्रत्येक सदस्य का बराबर वोट होता है, और यदि मतों में बराबरी होती है, तो RBI गवर्नर के पास निर्णायक वोट का अधिकार होता है।

• The MPC's **primary responsibility** is to set the **policy repo rate**—the rate at which **RBI lends to commercial banks**—to achieve the **designated inflation target**.

• MPC की मुख्य जिम्मेदारी नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना है—जो दर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है—ताकि निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

• Inflation Targeting Framework

• मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण रूपरेखा

• The MPC aims to maintain inflation at 4%, with a **tolerance band of $\pm 2\%$** , meaning the **acceptable range** is between 2% and 6%.

• MPC का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें $\pm 2\%$ का सहनशीलता बैंड है, यानी स्वीकार्य सीमा 2% से 6% के बीच है।

• If inflation remains outside this range for three consecutive quarters, the MPC must submit a report to the government detailing:

• यदि तीन लगातार तिमाहियों तक मुद्रास्फीति इस सीमा से बाहर रहती है, तो MPC को सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है, जिसमें शामिल होता है:

- **Reasons for the deviation.**
- भटकाव के कारण।
- **Proposed remedial actions.**
- प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय।
- **Estimated timeframe for returning to the target range.**
- लक्ष्य सीमा में लौटने का अनुमानित समय।

• This framework emphasizes the **MPC's accountability in maintaining price stability**.

• यह रूपरेखा मूल्य स्थिरता बनाए रखने में MPC की जवाबदेही को दर्शाती है।

• Recent Developments

• हाल के घटनाक्रम



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



• In **February 2025**, under the leadership of **Governor Sanjay Malhotra**, the **MPC reduced the benchmark interest rate by 25 basis points to 6.25%**.

• फरवरी 2025 में, गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में, MPC ने बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दिया।

• This was the **first rate cut in nearly five years**, aimed at **stimulating economic growth amid easing inflationary pressures**.

• यह पिछले पांच वर्षों में पहली बार ब्याज दर में कटौती थी, जिसका उद्देश्य घटती मुद्रास्फीति दबावों के बीच आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना था।

• The move reflects the **MPC's proactive approach** in balancing **growth and inflation dynamics**.

• यह कदम MPC के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



First GBS case reported in Mumbai; 180 cases in State

First GBS case reported in Mumbai; 180 cases in State

मुंबई में पहली GBS बीमारी का मामला दर्ज; राज्य में 180 मामले

GS Paper III: S&T

The Hindu Bureau
MUMBAI

Mumbai reported its first case of Guillain-Barré Syndrome (GBS) on Friday after a 64-year-old Andheri-based resident was diagnosed with the rare nerve disorder and hospitalised for treatment.

मुंबई में शुक्रवार को पहला गुइलेन-बैरी सिंड्रोम (GBS) का मामला दर्ज हुआ, जब अंधेरी की 64 वर्षीय महिला को दुर्लभ नसों की बीमारी का पता चला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।

• Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) officials confirmed that the elderly woman had a history of fever and diarrhoea, followed by **ascending paralysis**.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने पुष्टि की कि महिला को पहले बुखार और डायरिया हुआ था, जिसके बाद शरीर में धीरे-धीरे लकवा आ गया।

• A total of **180 GBS cases** have been reported so far, with **four new suspected cases identified on Friday**.

अब तक कुल **180 GBS** के मामले दर्ज किए गए, जिनमें शुक्रवार को चार नए संदिग्ध मामले सामने आए।

• Among **six deaths in Maharashtra**, at least **five are suspected to be due to GBS**.

महाराष्ट्र में छह मौतों में से, कम से कम पाँच GBS के कारण होने की आशंका है।

• According to the **State Public Health Department**, **35 out of 180 patients** are from the **Pune Municipal Corporation**, and **88 are from newly added villages in the corporation limits**.

राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 180 मरीजों में से 35 पुणे नगर निगम क्षेत्र से हैं, और 88 हाल ही में जोड़े गए गांवों से हैं।

Ascending Paralysis

चढ़ता पक्षाघात

• **Ascending paralysis** is a medical condition characterized by **muscle weakness** that begins in the **lower limbs** and progresses **upward** to the upper limbs and other parts of the body.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



• चढ़ता पक्षाघात एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी पहले निचले अंगों से शुरू होती है और धीरे-धीरे ऊपरी अंगों और शरीर के अन्य हिस्सों में फैलती है।

• A primary example of a disorder presenting with **ascending paralysis** is **Guillain-Barré Syndrome (GBS)**.

• चढ़ते पक्षाघात का एक प्रमुख उदाहरण **गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS)** है।

Guillain-Barré Syndrome (GBS)

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS)

• **Guillain-Barré Syndrome** is a rare autoimmune disorder where the body's **immune system** mistakenly attacks the **peripheral nervous system**.

• **गुइलेन-बैरे सिंड्रोम** एक दुर्लभ स्व-प्रतिरक्षी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है।

• This can lead to symptoms ranging from **mild weakness** to **severe paralysis**.

• इससे हल्की कमजोरी से लेकर गंभीर पक्षाघात तक के लक्षण विकसित हो सकते हैं।

• The exact cause of **GBS** is **not fully understood**, but it often follows a **bacterial or viral infection**.

• **GBS** का सटीक कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर जीवाणु या विषाणु संक्रमण के बाद होता है।

Symptoms of GBS

GBS के लक्षण

• **Initial Symptoms:** **Tingling** and **weakness** typically start in the **legs** and may spread to the **arms and face**.

• **प्रारंभिक लक्षण:** झुनझुनी और कमजोरी आमतौर पर टांगों से शुरू होती है और धीरे-धीरे हाथों और चेहरे तक फैल सकती है।

• **Progression:** Symptoms can escalate to **muscle paralysis**, affecting **breathing** and **swallowing muscles** in severe cases.

• **विकास:** लक्षण मांसपेशियों के पक्षाघात तक बढ़ सकते हैं, और गंभीर मामलों में यह सांस लेने और निगलने की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है।

• **Additional Symptoms:** **Unsteady gait**, **pins and needles sensations**, **severe pain** (especially at night), and issues with **coordination**, **digestion**, **bladder control**, or **blood pressure**.



• अतिरिक्त लक्षण: अस्थिर चाल, सुई चुभने जैसा अहसास, तेज दर्द (विशेष रूप से रात में), और संतुलन, पाचन, मूत्राशय नियंत्रण या रक्तचाप से जुड़ी समस्याएँ।

Causes and Risk Factors

कारण और जोखिम कारक

• While the **exact cause** is **unknown**, **GBS** often develops after infections such as:

• **GBS** का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन यह आमतौर पर निम्नलिखित संक्रमणों के बाद विकसित होता है:

- **Campylobacter jejuni**: A **bacterium** causing **diarrhea and vomiting**.
- **Campylobacter jejuni**: एक जीवाणु जो दस्त और उल्टी का कारण बनता है।
- **Other Infections**: Including **cytomegalovirus**, **Epstein-Barr virus**, and **influenza virus**.
- अन्य संक्रमण: साइटोमेगालोवायरस, एप्सटीन-बार वायरस, और इन्फ्लूएंजा वायरस शामिल हैं।

Pathophysiology

रोगजनन प्रक्रिया

- In **GBS**, the **immune system** attacks **peripheral nerves**, leading to **inflammation** and **demyelination** (loss of the **myelin sheath** insulating nerve fibers).
- **GBS** में, प्रतिरक्षा प्रणाली, परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिससे सूजन और माइलिन शीथ का नुकसान (जो तंत्रिका तंतुओं को इंसुलेट करता है) होता है।
- This impairs **nerve signal transmission**, resulting in **muscle weakness** and **paralysis**.
- इससे तंत्रिका संकेतों के संचरण में बाधा आती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात होता है।

Treatment and Recovery

उपचार और रिकवरी

- There is **no cure** for **GBS**, but treatments can **alleviate symptoms** and **expedite recovery**.
- **GBS** का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उपचार लक्षणों को कम कर सकता है और रिकवरी को तेज कर सकता है।
- **Immunotherapy**: **Plasmapheresis** (removal of **antibodies** from the **blood**) or **intravenous immunoglobulin therapy** can reduce the immune attack on the **nervous system**.
- **इम्यूनोथेरेपी**: प्लाज्माफेरेसिस (रक्त से एंटीबॉडी हटाने की प्रक्रिया) या इंटरवीनस इम्युनोग्लोबुलिन थेरेपी से तंत्रिका तंत्र पर प्रतिरक्षा हमले को कम किया जा सकता है।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- **Supportive Care: Monitoring of vital functions** and providing **respiratory support** if necessary.
- **सहायक देखभाल: महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों की निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर सांस लेने में सहायता प्रदान करना।**
- **Recovery varies;** some individuals **recover fully**, while others may experience **long-term nerve damage**.
- **रिकवरी अलग-अलग हो सकती है;** कुछ व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ को लंबे समय तक तंत्रिका क्षति हो सकती है।
- **Early diagnosis and treatment are crucial** for better outcomes.
- **प्रारंभिक निदान और समय पर उपचार बेहतर परिणामों के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

Recent Updates

हालिया अपडेट

- As of **January 2025**, there have been reports of **GBS cases following certain infections**.
- **जनवरी 2025 तक, कुछ संक्रमणों के बाद GBS के मामलों की रिपोर्ट सामने आई है।**
- A **six-year-old child** was diagnosed with **GBS** after complaining of **leg pain** and experiencing a **fall**.
- एक **छह वर्षीय बच्चा, टांगों में दर्द** की शिकायत के बाद **गिर गया और उसे GBS का पता चला।**
- Such cases highlight the **importance of prompt medical attention** when symptoms arise.
- ऐसे मामले **लक्षणों के दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता को दर्शाते हैं।**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



GS Paper III: Growth & Inflation

Growth over inflation

The interest rate cut signals a shift in the RBI's immediate priorities

For the first time in nearly five years, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) pivoted on interest rates, unanimously deciding to cut the benchmark repo rate from 6.50% to 6.25%. This move, while maintaining a neutral stance, marks a significant departure from the previous bi-monthly review, where the committee had opted for the status quo with a 4:2 vote. At the time, the MPC was contending with inflation at a 15-month high of 6.2% in October and a sluggish second-quarter GDP growth of 5.4%. Now, with inflation moderating to 5.2% in December, still above the RBI's 4% target, and growth projections for 2024-25 slipping to a four-year low of 6.4%, the central bank appears to be prioritising economic expansion over inflation control. RBI Governor Sanjay Malhotra, in his first policy review, highlighted the challenges posed by global economic uncertainties, including stalled disinflation, diminishing prospects of rate cuts in the U.S., and a stronger dollar pressuring emerging markets and their currencies, including the rupee. These factors have complicated policy trade-offs for India, making the case for supporting growth even stronger. The MPC justified its decision to look past current inflationary concerns, citing expectations that price pressures will ease further, with inflation projected to average 4.2% in 2025-26 from 4.8% this year. This outlook hinges on assumptions of a favourable food inflation trajectory, a normal monsoon, and a bumper harvest of key vegetables such as tomato, onion, and potato, which are, historically, major contributors to price spikes. While inflation remains a concern, the panel has signalled that weak economic growth is more pressing, especially given the second-quarter slump and limited signs of recovery since then. The RBI's post-Budget policy stance also suggests closer alignment with fiscal policy, apparently heeding the government's call for monetary and fiscal measures to work in tandem rather than at cross-purposes. Whether the Budget's stimulus measures, combined with the rate cut, will revive consumption, attract private investment, and boost growth remains uncertain.

Interestingly, had the MPC met a week later, it might have had additional justification for the rate cut, given expectations that inflation in January could have cooled to around 4.5%. With a new Governor at the helm and an upcoming appointment for the Deputy Governor overseeing monetary policy, the RBI could consider adjusting the MPC's review schedule to incorporate the latest inflation data. A slight shift in the timing of its bi-monthly meetings could make monetary policy more responsive and data-driven, enhancing the committee's ability to justify its stance with real-time economic indicators.

Growth over inflation

मुद्रास्फीति पर विकास को प्राथमिकता

For the first time in nearly five years, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) has decided to cut the benchmark repo rate from 6.50% to 6.25%.

लगभग पांच वर्षों में पहली बार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बेंचमार्क रेपो दर 6.50% से घटाकर 6.25% करने का फैसला किया है।

• The move marks a significant shift from the previous bi-monthly review, where the committee opted for the status quo with a 4:2 vote.

यह कदम पिछली द्विमासिक समीक्षा से महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जब समिति ने 4:2 वोट से यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया था।

• In October, inflation had reached a 15-month high of 6.2%, while second-quarter GDP growth was sluggish at 5.4%.

अक्टूबर में, मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्च स्तर 6.2% पर थी, जबकि दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 5.4% पर सुस्त थी।

• By December, inflation had moderated to 5.2%, still above the RBI's 4% target, while growth projections for 2024-25 slipped to a four-year low of 6.4%.

दिसंबर तक, मुद्रास्फीति 5.2% तक कम हो गई, जो अब भी RBI के 4% लक्ष्य से अधिक है, जबकि 2024-25 के लिए विकास दर अनुमान चार वर्षों के न्यूनतम स्तर 6.4% तक गिर गए।

• RBI Governor Sanjay Malhotra, in his first policy review, highlighted global economic uncertainties, including stalled disinflation, diminishing prospects of U.S. rate cuts, and a stronger dollar impacting emerging markets.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को उजागर किया, जिसमें घटती मुद्रास्फीति, अमेरिका में ब्याज दर कटौती की संभावनाओं में कमी, और उभरते बाजारों पर मजबूत डॉलर का प्रभाव शामिल है।

• The MPC justified its decision by citing expectations that inflation will ease further, with projections of 4.2% in 2025-26 from 4.8% this year.

MPC ने अपने निर्णय को उचित ठहराया, यह कहते हुए कि मुद्रास्फीति और



कम होने की संभावना है, और इसका अनुमान 2025-26 में 4.2% तक गिरने का है, जो इस वर्ष 4.8% है।

- The outlook depends on favorable food inflation trends, normal monsoons, and a bumper harvest of key vegetables like tomato, onion, and potato, which historically contribute to price spikes.

यह अनुमान अनुकूल खाद्य मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों, सामान्य मानसून, और टमाटर, प्याज, आलू जैसी प्रमुख फसलों की बेहतर पैदावार पर निर्भर करता है, जो पारंपरिक रूप से कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं।

- The RBI's post-Budget policy stance suggests closer alignment with fiscal policy, aligning monetary and fiscal measures to work together.

RBI की बजट के बाद की नीतिगत स्थिति, राजकोषीय नीति के साथ अधिक तालमेल का संकेत देती है, जिससे मौद्रिक और राजकोषीय उपायों को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा।

- If the MPC had met a week later, it might have had additional justification for the rate cut, as January inflation was expected to cool to around 4.5%.

यदि MPC की बैठक एक हफ्ते बाद होती, तो ब्याज दर कटौती के लिए अधिक मजबूत तर्क मिल सकता था, क्योंकि जनवरी की मुद्रास्फीति 4.5% तक कम होने की उम्मीद थी।

- With a new Governor and an upcoming Deputy Governor appointment, the RBI may consider adjusting the MPC's review schedule for more data-driven policy decisions.

नए गवर्नर और आगामी डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति के साथ, RBI भविष्य में MPC की समीक्षा अनुसूची में बदलाव पर विचार कर सकता है, जिससे अधिक डेटा-आधारित नीति निर्णय लिए जा सकें।



Fisherfolk and people from the Tamil Nadu Forest Department bury a dead Olive Ridley turtle that was washed ashore. B. JOTHI RAMALINGAM



When trawl boats often encroach into restricted areas, it increases the risk of turtle entanglement and death.

SUPRAJA DHARINI
Founder, TREE Foundation

deaths emerged, the Tamil Nadu government formed a task force headed by the Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden, Rakesh Kumar Dogra. On January 27, the task force decided to strengthen regulations on trawl fishing, enforce the use of Turtle Excluder Devices (TEDs), and restrict the horsepower of boat engines.

TEDs are metal grids designed to allow turtles to escape from trawl nets. But fisherfolk have expressed concerns that these devices could reduce their catch. A fisherman working on a mechanised boat in Kasimedu explains that with dwindling resources in the ocean, even a small fall in the catch can have a significant impact on his profits. "There have been no efforts from the Fisheries Department to introduce improved TED models or compensate fishermen for the months they are required to use them," he says.

Kumar refutes this. He says TEDs do not result in significant catch loss. He explains that larger fish typically do not travel in schools and are not often caught in trawl nets.

The government has also increased joint patrols involving the Fisheries Department, Forest Department, Indian Coast Guard, and Marine Police. According to Dogra, long-term studies and monitoring, including telemetry research, will also begin soon. Plans have also been put in place to involve police authorities in monitoring and addressing trawler violations.

Meanwhile, the Southern Bench of the National Green Tribunal took suo motu notice of the issue on January 18 and criticised the Tamil Nadu government for failing to regulate trawlers and enforce the use of TEDs despite previous orders.



A surge of dead sea turtles in the sand

Hundreds of Olive Ridley sea turtle carcasses have been found since the first week of January in the Chennai and Chengalpattu districts. Conservationists say the number of deaths is three times the usual number during the mating season and have sounded alarm bells about bottom trawling, the widespread use of fishing gear, and plastic pollution. **Geetha Srimathi** reports on the tragedy along the coastline

GS Paper III: Environment

In a sunny day in January, A. Prakash, 40, sits on a boat in Kovalam, off the East Coast Road (ECR) in Chengalpattu district of Tamil Nadu. He has just returned from a fishing trip where he saw 10 Olive Ridley sea turtle carcasses floating in the sea. "We (fisherfolk) have been seeing many such carcasses every day since the beginning of the year," he says, perturbed.

Prakash points to an elderly woman nearby, who comes to pick up a basket of tiger prawns from the boat, and says her son helps the Forest Department bury the carcasses. Placing the basket deftly on her head, Rani, 65, says, "My son just buried six and came home tired and hungry."

In the Chennai and Chengalpattu districts, located along the 1,076 kilometre-long coastline of Tamil Nadu, many people recall seeing dead Olive Ridley sea turtles washed ashore this year. C. Gnanasekar, 44, a fisherman from Uthandi, off ECR, spotted four of them in the first week of January. Rajiv Rai, 69, from Injambakkam in Chennai, says he has seen about 80 since the first week of the year. Maria, a nature enthusiast, says she saw 24 at Nemmeli Kuppam in Chengalpattu.

Olive Ridley turtles, which are found in warmer waters, such as the southern Atlantic, Pacific, and Indian Oceans, haul themselves up on India's eastern shore every year by the tens of thousands and lay eggs in an event known as *arribada* (arrival by sea in Spanish). While Odisha is a mass nesting site for Olive Ridley turtles in India, thousands of these small wild animals also come sporadically to nest between December and April along the Tamil Nadu coastline, a lifeline for millions who depend on fishing for their livelihood. The biodiverse and eco-sensitive Gulf of Mannar, located off the districts of Thoothukudi and Ramanathapuram in the south, is an essential feeding site for these turtles. The creatures then migrate to Odisha, West Bengal, and beyond.

Along the 34-km-long coast from the Marina Beach in Chennai to Kovalam in Chengalpattu, seeing dead sea turtles on the shore during mating season is not unusual – every year, an average of 350 dead turtles can be found, says Shrawan Krishnan, a volunteer with the Students Sea Turtle Conservation Network (SSTCN). However, this year, until January 31, conservationists had counted 1,200 dead sea turtles, more than three times the normal figure. The Tamil Nadu Forest Department provided a more conservative estimate (706 turtles until January 23). The department has refused to provide numbers since then.

To make matters worse, the number of sea turtle nests along the shores has been unusually low. "Most turtles that were to nest have died. All the dead female turtles we bury have eggs in their bodies," says Gnanasekar, who has been working with the TREE Foundation, a marine conservation organisation, for two decades.

Guests from the sea

Olive Ridleys are the smallest of the seven sea turtle species. They weigh up to 45 kilogrammes

The turtles are like the daughters of our village. They come back to their home to have children.

R. SANKARI
Resident of Nemmeli

and reach only about 2 feet in shell length. Their name comes from their olive-coloured carapaces (hard upper shells). Though their numbers have remained stable in recent years, Olive Ridleys remain a key species in global conservation efforts and are classified 'vulnerable' by the International Union for Conservation of Nature Red List.

Sea turtles play a crucial role in the marine ecosystem. By feeding on crustaceans that live on the seabed, they help release the oxygen that is trapped there. They maintain healthy seagrass levels by nibbling on seagrass and algae. They provide shelter for commercially important fish species and control jellyfish populations that could otherwise harm fish larvae.

In Tamil Nadu, conservationists and fisherfolk refer to Olive Ridley turtles as "guests" and even "god". For fisherfolk such as A. Palayam, 62, from Urur Kuppam in Besant Nagar in Chennai, sea turtles have a cultural and spiritual significance. "Our *kutti amma* (little mother) is important for us," he says. In addition to the creature's cultural significance, fisherfolk view sea turtles as a symbol of a healthy ecosystem.

Every year, Olive Ridleys pore out of the sea, crowd the shore, give birth, and then wait to be swept into the sea again. Referring to this, R. Sankari, 37, a resident of Nemmeli, says, "The turtles are like the daughters of our village. They come back to their home to have children." Sankari says she has been seeing an unusually high number of dead turtles this nesting season.

In Chennai, one of the few metropolitan cities in India where these sea turtles come to nest, it is not just fisherfolk who speak passionately about turtles; conservationists and students sport T-shirts urging people to save turtles and set off at midnight during the nesting season to scour dark

sands for eggs.

Abhishaek, 24, a volunteer with SSTCN, and his peers patrol two stretches of the coast between the Cooum estuary and Neelankarai every night in the nesting season. As they walk, they search for tracks left by the turtles and follow them. When they come across a distinctive clearing, they use a 'probe', a long hollow rod, to check for nests. If they find eggs, they carefully collect them and measure the nest's dimensions to recreate the conditions in hatcheries, before continuing their walk. "Working with a community that cares so much about sea turtles has shaped my interest in wildlife conservation. Sea turtles are a huge part of my life," he says.

Abhishaek, who has spent four years with SSTCN, says the team hardly found nests in the first three weeks of January. "Typically, we find about 30 nests. But this year, we could find only two," he says.

Nets of destruction

By the end of January, conservationists and authorities in Andhra Pradesh also began to notice that the number of dead turtles was higher than normal. C. Selvam, Conservator of Forests in the Tirupati Circle of the Andhra Pradesh Forest Department, says the problem is not confined to Tamil Nadu. Supraja Dharini, founder of the TREE Foundation who also works with the Andhra Pradesh Forest Department, says at least 2,032 turtles had died until January 26 in the State.

Dharini says one of the primary threats to sea turtles is bottom trawling and the widespread use of fishing gear, such as gill nets. The Tamil Nadu Marine Fishing Regulation Act, 1983, stipulates that trawl boats should operate beyond 5 nautical miles (approximately 9.26 km) from the shore. This zone is reserved for artisanal fishermen using smaller boats. "However, despite regulations, many commercial fishermen continue to violate these rules," Dharini says. "When trawl boats often encroach into restricted areas, it increases the risk of turtle entanglement and death."

R. Suresh Kumar, a wildlife biologist at the Wildlife Institute of India, explains that turtles don't just visit nesting beaches but congregate in specific areas before nesting. "Destructive fishing practices such as trawling and gill netting in these aggregation zones could be a significant factor in the rise in deaths," he says.

Acknowledging the harmful effects of trawling, K. Bharathi, president of the South Indian Fishermen Welfare Association, says those who violate the law should be penalised. However, the government has failed to provide any viable alternatives to commercial fishing, he adds.

After news reports of the high number of turtle

The surge in turtle deaths also coincided with an unusually rough monsoon season. Fishermen report that the seas have been particularly turbulent as the north-east monsoon of 2024 persisted well beyond its usual last date of December 31, as per the India Meteorological Department.

Palayam argues that it's not fair to place the blame solely on fishermen. He has been tracking currents and wind patterns every day since 2018 and notes that this season has been unusual. "During the onset of the Tamil *Thai* month, the sea is typically calm. But that hasn't been the case this year. The *olini* (easterly) current could push objects back to the shore, which could explain how dead carcasses from Andhra Pradesh could be washing ashore in Chennai," he says.

A collaborative effort

Kartik Shanker, an ecologist and author of *From Soup to Superstar: The Story of Sea Turtle Conservation Along the Indian Coast*, believes that many of the regulations that are necessary to protect turtles are already covered by fisheries laws; the challenge lies in improving compliance with the engagement of all stakeholders, especially traditional fishermen.

Shankar also points out that a specific focus on turtle conservation can sometimes be counter-productive, leading to conflicts between sectors. "Sea turtle populations are increasing in many parts of the world, including on the east coast, but we need to make fishing regulations effective for the integrity of coastal ecosystems because bottom trawling is a destructive practice. Trawling tends to tear up the seafloor, causing damage to the entire habitat, not just turtles," he says.

Kumar says protecting critical turtle habitats can also benefit local fishermen. "When we secure areas for turtles, it's not just good for conservation, but also supports the livelihoods of artisanal fishermen, who do not go venture deep into the sea," he says.

This is not an easy task, he adds. "The Tamil Nadu Forest Department must collaborate closely with fishermen, while the Fisheries Department needs to take a more serious approach to understanding where and what type of fishing is occurring," he says.

The pressure on the marine industry is immense, with demands for both local consumption and exports. "We need to conduct tracking studies specific to this coast. We can't just replicate what works in other regions," Kumar insists.

Selvam calls for a more unified approach that includes identifying key mating and congregation areas in the sea. This strategy should involve the Fisheries Department and local communities more closely, he says. However, the department has limited resources and manpower, which makes it difficult to enforce regulations effectively. Monitoring such vast ocean areas is also a logistical challenge. "Collaboration between fishermen, conservation groups, and the use of technological tools like apps to track turtle activity will be crucial," he says.

Fishermen point out that in addition to trawlers, gill nets, and squid nets, the sea turtles face significant threats from the plastic waste that floods the ocean. "Why can't the government build a structure to prevent plastics from entering the sea?" asks Gnanasekar.

Palayam also raises concerns about the growing number of hard structures, such as groynes, being built along Tamil Nadu's sandy beaches, which damage the nesting habitats.

"Over the years, we have noticed that when the turtles come to nest, they find the sand polluted and return without nesting," says Abhishaek.

Saving the turtles is about safeguarding the future of both the sea and the people who rely on it. Sankari says, "I remember my father offering prayers if a sea turtle accidentally got caught in his net. He wouldn't go out to sea for a day. If the turtles are in trouble, how will we survive?"



Along the 34-kilometre-long coast from the Marina Beach in Chennai to Kovalam in Chengalpattu, seeing dead sea turtles on the shore during mating season is not an unusual phenomenon, but the numbers this year have been unprecedented. B. JOTHIRAMALINGAM

geetha.srimathi@thehindu.co.in

A Surge of Dead Sea Turtles in the Sand
रेत में मृत समुद्री कछुओं की बाढ़

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Hundreds of Olive Ridley sea turtle carcasses have been found since the first week of January in the Chennai and Chengalpattu districts.

जनवरी के पहले सप्ताह से, चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में सैकड़ों ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के शव मिले हैं।

- **Conservationists** say the number of deaths is **three times the usual number** during the **mating season** and have raised concerns about **bottom trawling, fishing gear, and plastic pollution**.
संरक्षणवादियों का कहना है कि संभोग के मौसम में मरने वाले कछुओं की संख्या सामान्य से तीन गुना अधिक है और उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग, मछली पकड़ने के जाल, और प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है।
- **A. Prakash, a 40-year-old fisherman**, reported seeing **10 dead turtles floating** in the sea during a fishing trip off the **East Coast Road (ECR)** in Chengalpattu district.
40 वर्षीय मछुआरे ए. प्रकाश ने चेंगलपट्टू जिले के ईस्ट कोस्ट रोड (ECR) के पास मछली पकड़ते समय **10 मृत कछुओं को समुद्र में तैरते हुए देखा।**
- **Injambakkam resident Rajiv Rai, 69**, has spotted **around 80 dead turtles** since early January, while **Maria, a nature enthusiast**, saw **24 turtles** at **Nemmeli Kuppam**.
इंजंबक्कम निवासी 69 वर्षीय राजीव राय ने जनवरी की शुरुआत से अब तक लगभग **80 मृत कछुओं को देखा**, जबकि प्रकृति प्रेमी **मारिया** ने **नेम्मेली कुप्पम में 24 कछुओं को देखा।**
- **Olive Ridley turtles**, which are found in **warmer waters of the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans**, migrate to **India's eastern shore every year** in tens of thousands for nesting.
ऑलिव रिडले कछुए, जो अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं, हर साल हजारों की संख्या में भारत के पूर्वी तट पर अंडे देने के लिए आते हैं।
- **Odisha** is the primary mass nesting site, but thousands also nest sporadically between December and April along the **Tamil Nadu coastline**.
ओडिशा मुख्य सामूहिक घोंसले बनाने का स्थल है, लेकिन हजारों कछुए दिसंबर से अप्रैल के बीच तमिलनाडु के तट पर भी अंडे देते हैं।
- **Gulf of Mannar**, located off the **Thoothukudi and Ramanathapuram districts**, serves as an **essential feeding site for these turtles** before they migrate further.
गुल्फ ऑफ मन्नार, जो थूथुकुडी और रामनाथपुरम जिलों के पास स्थित है, इन कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्थल है, जहां से वे आगे प्रवास करते हैं।
- **From Marina Beach (Chennai) to Kovalam (Chengalpattu)**, about **350 dead turtles** are usually found every year. However, **by January 31 this year, 1,200 dead turtles had been recorded**—more than **three times the usual number**.
चेन्नई के मरीना बीच से चेंगलपट्टू के कोवलम तक, आमतौर पर हर साल लगभग **350 मृत कछुए मिलते हैं।** हालांकि, इस साल 31 जनवरी तक यह संख्या **1,200 तक पहुंच गई—जो सामान्य संख्या से तीन गुना अधिक है।**



- The Tamil Nadu Forest Department provided a more conservative estimate of **706 dead turtles by January 23**, but has not released numbers since.
तमिलनाडु वन विभाग ने 23 जनवरी तक 706 मृत कछुओं की रिपोर्ट दी, लेकिन इसके बाद कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।
- The number of turtle nests is unusually low, with many dead female turtles found with eggs inside their bodies.
कछुओं के घोंसलों की संख्या असामान्य रूप से कम है, और मृत मादा कछुओं के शरीर में अंडे पाए गए हैं।

Guests from the Sea

समुद्र से आए मेहमान

- Olive Ridley turtles are the smallest of the seven sea turtle species, weighing up to 45 kg and measuring about 2 feet in shell length.
ऑलिव रिडले कछुए सात समुद्री कछुआ प्रजातियों में सबसे छोटे होते हैं, जिनका वजन लगभग 45 किलोग्राम और खोल की लंबाई लगभग 2 फीट होती है।
- They are named after their olive-colored carapace (hard upper shell) and are classified as 'Vulnerable' by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.
इनका नाम उनके जैतूनी रंग के खोल (कठोर ऊपरी कवच) से पड़ा और इन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- Sea turtles play a crucial role in the marine ecosystem by:
समुद्री कछुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि:
 - Feeding on crustaceans that live on the seabed, helping release trapped oxygen.
समुद्री सतह पर रहने वाले क्रस्टेशियंस (झींगा जैसी प्रजातियां) को खाकर ऑक्सीजन को मुक्त करने में मदद करते हैं।
 - Maintaining healthy seagrass levels by nibbling on seagrass and algae.
समुद्री घास और शैवाल चरकर समुद्री वनस्पतियों को संतुलित बनाए रखते हैं।
 - Providing shelter for commercially important fish species and controlling jellyfish populations.
वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं और जेलीफिश की संख्या को नियंत्रित करते हैं।
- In Tamil Nadu, conservationists and fisherfolk consider Olive Ridley turtles as "guests" or even "god".
तमिलनाडु में, संरक्षणवादी और मछुआरे ऑलिव रिडले कछुओं को "अतिथि" या "भगवान" के रूप में मानते हैं।
- A. Palayam, a 62-year-old fisherman from Urur Kuppam (Chennai), says sea turtles have cultural and spiritual significance, calling them 'kutti amma' (little mother).



62 वर्षीय मछुआरे ए. पलयम (उरुर कुप्पम, चेन्नई) का कहना है कि समुद्री कछुओं का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है और वे इन्हें 'कुट्टी अम्मा' (छोटी माँ) कहते हैं।

- R. Sankari, a resident of Nemmeli, says turtles are like daughters of the village—they come back to their home to have children.

नेम्मेली निवासी आर. संकरी का कहना है कि कछुए गाँव की बेटियों की तरह हैं—वे अपने घर (किनारे) पर बच्चों को जन्म देने के लिए लौटते हैं।

- This nesting season, an unusually high number of dead turtles have been found, raising serious concerns among conservationists.

इस बार घोंसला बनाने के मौसम में असामान्य रूप से अधिक मृत कछुए पाए गए, जिससे संरक्षणवादियों में गहरी चिंता है।

Saving the Sea Turtles

समुद्री कछुओं को बचाना

Nesting in Chennai

चेन्नई में घोंसले बनाना

- In Chennai, one of the few metropolitan cities in India, where sea turtles come to nest, not just fisherfolk, but also conservationists and students actively participate in conservation efforts.

चेन्नई, भारत के कुछ गिने-चुने महानगरीय शहरों में से एक है, जहाँ समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। यहाँ सिर्फ मछुआरे ही नहीं, बल्कि संरक्षणवादी और छात्र भी इस प्रयास में भाग लेते हैं।

- Volunteers set out at midnight during the nesting season, searching for turtle eggs along the dark sands.

घोंसले बनाने के मौसम में, स्वयंसेवक आधी रात को निकलते हैं और अंधेरे तटों पर कछुओं के अंडों की तलाश करते हैं।

Abhishaek and SSTCN's Conservation Efforts

अभिषेक और SSTCN के संरक्षण प्रयास

- Abhishaek (24), a volunteer with SSTCN, along with his peers, patrols two stretches of the Chennai coast every night during the nesting season.

अभिषेक (24), जो SSTCN के स्वयंसेवक हैं, अपने साथियों के साथ हर रात चेन्नई के दो तटीय इलाकों में गश्त लगाते हैं।

- They use a probe (a long hollow rod) to check for nests and carefully collect eggs to relocate them to hatcheries.

वे प्रोब (एक लंबी खोखली छड़) का उपयोग कर घोंसलों की पहचान करते हैं और अंडों को हैचरी में स्थानांतरित करने के लिए सावधानीपूर्वक इकट्ठा करते हैं।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- He states that in the **first three weeks of January**, they found **only 2 nests**, whereas they typically find around **30 nests** during this period.
वे बताते हैं कि जनवरी के पहले तीन हफ्तों में, उन्हें केवल 2 घोंसले मिले, जबकि आमतौर पर इस समय तक 30 घोंसले मिलते हैं।

Nets of Destruction

विनाश के जाल

- By the **end of January**, conservationists in **Andhra Pradesh** noticed a **higher number of dead turtles**.
जनवरी के अंत तक, आंध्र प्रदेश में संरक्षणवादियों ने मृत कछुओं की संख्या में वृद्धि देखी।
- **C. Selvam**, Conservator of Forests in **Tirupati Circle**, and **Supraja Dharini**, founder of the **TREE Foundation**, confirmed that **2,032 turtles** had died in Andhra Pradesh by **January 26**.
सी. सेल्वम, (तिरुपति सर्कल के वन संरक्षक) और सुप्रजा धरिणी, (TREE फाउंडेशन की संस्थापक) ने पुष्टि की कि 26 जनवरी तक 2,032 कछुए मर चुके थे।
- The **Tamil Nadu Marine Fishing Regulation Act, 1983** mandates that **trawl boats** must operate **beyond 5 nautical miles (9.26 km)** from the shore, but **many commercial fishermen violate this rule**.
तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट, 1983 के तहत ट्रॉल बोट्स को 5 समुद्री मील (9.26 किमी) से अधिक दूरी पर संचालित करने का नियम है, लेकिन कई व्यावसायिक मछुआरे इस नियम का उल्लंघन करते हैं।

Government Response

सरकार की प्रतिक्रिया

- After reports of rising turtle deaths, the **Tamil Nadu government** formed a **task force** led by **Rakesh Kumar Dogra** on **January 27**.
तमिलनाडु सरकार ने राकेश कुमार डोगरा की अध्यक्षता में 27 जनवरी को एक कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया।
- The task force decided to:
कार्यबल ने ये निर्णय लिए:
 - Strengthen **trawl fishing regulations**.
ट्रॉल मछली पकड़ने के नियमों को सख्त करना।
 - Enforce **Turtle Excluder Devices (TEDs)** to prevent turtles from getting caught in fishing nets.
टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDs) को अनिवार्य करना, जिससे कछुए जाल में न फंसें।
 - Restrict the **horsepower of boat engines**.
नाव के इंजनों की हॉर्सपावर सीमित करना।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- Some **fisherfolk** argue that **TEDs reduce their fish catch**, affecting their **profits**.
कुछ मछुआरों का कहना है कि TEDs उनकी मछली पकड़ने की क्षमता को कम कर सकते हैं, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है।

Environmental Factors & Challenges

पर्यावरणीय कारक और चुनौतियाँ

- The **north-east monsoon of 2024** lasted **longer than usual**, leading to **turbulent seas**.
2024 का उत्तर-पूर्वी मानसून सामान्य से अधिक समय तक चला, जिससे समुद्र में अशांति रही।
- **K. Palayam**, a researcher tracking **currents and wind patterns** since **2018**, noted that unusual currents may have caused **dead turtles to wash ashore** in Chennai.
के. पलयम, जो 2018 से धाराओं और पवन पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं, ने बताया कि असामान्य समुद्री धाराएँ मृत कछुओं को चेन्नई के तट पर ला सकती हैं।

A Collaborative Effort

सामूहिक प्रयास

- **Kartik Shanker**, ecologist and author, states that **fishing regulations** should be strengthened for the **entire coastal ecosystem**, not just for turtles.
कार्तिक शंकर, (पारिस्थितिकीविद् और लेखक) का कहना है कि मत्स्य नियमों को सिर्फ कछुओं के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सख्त किया जाना चाहिए।
- **R. Suresh Kumar** of the **Wildlife Institute of India** suggests identifying **critical turtle habitats** to benefit both **turtles and local fishermen**.
आर. सुरेश कुमार, (वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) ने सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण कछुआ आवासों की पहचान की जानी चाहिए, जिससे कछुओं और स्थानीय मछुआरों दोनों को लाभ हो।
- **Selvam** emphasizes the importance of **tracking studies** and the use of **technology** to monitor turtle activity.
सेल्वम ने ट्रैकिंग अध्ययन और तकनीक के उपयोग को कछुओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण बताया।
- **Plastic pollution** and **coastal construction** are also affecting turtle nesting sites.
प्लास्टिक प्रदूषण और तटीय निर्माण भी कछुओं के घोंसले बनाने की जगहों को प्रभावित कर रहे हैं।
- **Abhishaek** notes that turtles sometimes return **without nesting** due to **polluted sand**.
अभिषेक ने बताया कि कई बार प्रदूषित रेत के कारण कछुए बिना घोंसला बनाए लौट जाते हैं।

The Future of Sea Turtles & the Ocean

समुद्री कछुओं और महासागर का भविष्य



- **Sankari**, a fisherman's daughter, recalls how her father offered prayers when a turtle got caught in his net, believing that if turtles are in trouble, so are fishermen. संकरी, जो एक मछुआरे की बेटी हैं, याद करती हैं कि जब उनके पिता के जाल में कोई कछुआ फंस जाता था, तो वे प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कछुए खतरे में हैं, तो मछुआरे भी खतरे में हैं।

21 MPs write to Shah seeking update on Naga peace process

GS Paper III: Naga Insurgency

Vijaita Singh
NEW DELHI

A group of 21 parliamentarians have written to Home Minister Amit Shah seeking a detailed update on the Naga peace process in the ongoing session of Parliament.

The MPs said that since 2021 there is no full-time interlocutor for Naga peace talks and peace negotiations, which are essential for achieving lasting stability, "shouldn't be relegated to bureaucratic manoeuvring devoid of democratic oversight."

"It is deeply perplexing that despite the widespread recognition of the Naga peace process as a crucial pillar of national security and stability, Parliament remains uninformed about the status of negotia-

tions since the signing of the Framework Agreement. The persistent secrecy surrounding the agreement and the perceived impasse in subsequent negotiations raise serious concerns," the letter signed by MPs from the Rajya Sabha and Lok Sabha said.

Full-time interlocutor

"The absence of a dedicated full-time interlocutor leads to an unsettling inconsistency, with channels of communication reportedly disrupted and meetings between the negotiating parties occurring sporadically. Such a fragmented approach threatens to erode nearly three decades of painstaking progress, jeopardising the trust and goodwill carefully nurtured over the years," they said.

- The MPs expressed concern that **Parliament remains uninformed** about the status of negotiations since the signing of the **Framework Agreement**. सांसदों ने चिंता जताई कि फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से संसद को वार्ताओं की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

21 MPs write to Shah seeking update on Naga peace process

21 सांसदों ने शाह को नागा शांति प्रक्रिया पर अपडेट देने के लिए पत्र लिखा

A group of 21 parliamentarians have written to Home Minister Amit Shah, seeking a detailed update on the Naga peace process in the ongoing session of Parliament.

21 सांसदों के एक समूह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संसद के मौजूदा सत्र में नागा शांति प्रक्रिया पर विस्तृत अपडेट मांगा है।

- The MPs said that since 2021, there is **no full-time interlocutor** for the **Naga peace talks**. सांसदों ने कहा कि 2021 से नागा शांति वार्ता के लिए कोई पूर्णकालिक वार्ताकार नहीं है।
- They stressed that peace negotiations, essential for **lasting stability**, "shouldn't be relegated to bureaucratic manoeuvring devoid of democratic oversight." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी स्थिरता के लिए आवश्यक शांति वार्ताओं को नौकरशाही प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें लोकतांत्रिक निगरानी होनी चाहिए।



- They stated that the **secrecy** surrounding the agreement and the **perceived impasse** in negotiations raise **serious concerns**.

उन्होंने कहा कि इस समझौते के गोपनीयता और वार्ताओं में गतिरोध को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं।

- **Full-time interlocutor**

पूर्णकालिक वार्ताकार

- The **absence of a dedicated full-time interlocutor** leads to an **unsettling inconsistency**, with **communication channels disrupted** and **sporadic meetings** between negotiating parties.

पूर्णकालिक वार्ताकार की अनुपस्थिति से अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, क्योंकि संवाद के माध्यम बाधित हैं और वार्ता पक्षों के बीच बैठकें अनियमित हो रही हैं।

- Such a **fragmented approach** threatens to **erode nearly three decades of progress**, jeopardising the **trust and goodwill** built over the years.

इस प्रकार का बिखरा हुआ दृष्टिकोण पिछले तीन दशकों की प्रगति को खतरे में डाल सकता है, जिससे वर्षों से बनाए गए विश्वास और सद्भावना को नुकसान हो सकता है।

Centre holds consultation with States on setting up biomanufacturing facilities

Centre holds consultation with States on setting up biomanufacturing facilities

केंद्र ने जैव-निर्माण सुविधाओं की स्थापना पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया

Following the approval of the Biotechnology for Economy, Environment and Employment (BioE3) policy by the Union Cabinet in August, the Department of Biotechnology organised a consultation with States on Friday regarding setting up biomanufacturing facilities in their regions.

GS Paper III: Environment

Jacob Koshy
NEW DELHI



The States made presentations on their efforts at promoting biotechnology industries.

Following the approval of the Biotechnology for Economy, Environment and Employment (BioE3) policy by the Union Cabinet last August, the Department of Biotechnology organised a consultation with States on Friday here to setting up biomanufacturing facilities in their regions.

Biomanufacturing refers to the industrial manufacture of a variety of products relating to high-value bio-based chemicals, biopolymers and enzymes; smart proteins and functional foods; precision biotherapeutics and climate resilient agriculture.

“Currently, several States do not even have a policy on biotechnology

manufacturing. For the next, say Biocon, to emerge we need close engagement between States and the Centre,” said Rakesh Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology.

“I am confident that in the coming years, biotechnology will be an avenue of massive investments and profits, and (States) that

take early steps will have an advantage,” Union Science Minister Jitendra Singh said at the conclave.

The road map to achieving this will involve establishing ‘State-centric BioE3 cells’, formulating State-centric BioE3 action plans, constituting State-level steering committees, appropriate working groups and nodal officers and setting up Bio-AI hubs, foundries and manufacturing hubs.

Several States made presentations on their efforts at promoting biotechnology industries. However, they were largely unanimous that without significant support from the Centre, in terms of direction and fund, successfully scaling up biotechnology manufacturing would be challenging.



अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति को मंजूरी मिलने के बाद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुक्रवार को राज्यों के साथ उनके क्षेत्रों में जैव-निर्माण सुविधाओं की स्थापना को लेकर विचार-विमर्श किया।

- **Biomanufacturing** refers to the industrial manufacture of products related to bio-based chemicals, biopolymers, enzymes, smart proteins, functional foods, precision biotherapeutics, and climate-resilient agriculture.

जैव-निर्माण का अर्थ है जैव-आधारित रसायन, जैव-पॉलीमर, एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक जैव-चिकित्सा और जलवायु-लचीली कृषि से संबंधित उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन।

- **Several States lack policies on biotechnology manufacturing**, and collaboration between States and the Centre is essential for significant progress.

कई राज्यों में जैव प्रौद्योगिकी निर्माण पर नीतियों का अभाव है, और राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग महत्वपूर्ण प्रगति के लिए आवश्यक है।

- **Rajesh Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology**, stated that **without strong engagement**, it would be difficult for another major company like **Biocon** to emerge in the sector.

राजेश गोखले, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, ने कहा कि मजबूत सहयोग के बिना, इस क्षेत्र में **Biocon** जैसी एक और बड़ी कंपनी का उभरना कठिन होगा।

- **Union Science Minister Jitendra Singh** expressed confidence that **biotechnology** will become a **major investment sector** in the coming years, and early adopters will have an advantage.

केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि जैव प्रौद्योगिकी आने वाले वर्षों में एक प्रमुख निवेश क्षेत्र बनेगी, और जो राज्य पहले कदम उठाएंगे, उन्हें लाभ मिलेगा।

- The **road map** to achieving this goal includes:

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप में शामिल हैं:

- Establishing **State-centric BioE3 cells**
राज्य-केंद्रित BioE3 सेल की स्थापना
- Formulating **State-centric BioE3 action plans**
राज्य-केंद्रित BioE3 कार्य योजना बनाना
- Creating **State-level steering committees and working groups**
राज्य-स्तरीय संचालन समितियों और कार्य समूहों का गठन
- Setting up **Bio-AI hubs, foundries, and manufacturing hubs**
Bio-AI हब, फाउंड्री और विनिर्माण केंद्रों की स्थापना

- **Several States** presented their efforts in promoting **biotechnology industries**, but **unanimously** stated that **without significant financial and policy support from the Centre**, scaling up biotechnology manufacturing would be challenging.



कई राज्यों ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को प्रस्तुत किया, लेकिन सर्वसम्मति से कहा कि केंद्र से पर्याप्त वित्तीय और नीतिगत समर्थन के बिना, जैव-निर्माण का

Budget's focus on vegetables, fruits and pulses is a positive for inflation: RBI Governor

विस्तार करना चुनौतीपूर्ण होगा।

"When you go to an exam, what do you aspire for? Some aspire to just pass it, some excel. At the RBI, we like to be on top of everything", Sanjay Malhotra remarked on inflation management

GS Paper III: Economy

Lalendu Mishra

MUMBAI

Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra, in a briefing after unveiling the latest monetary policy, said the rate-setting panel unanimously felt this was the time to support growth with inflation worries easing a bit. Edited excerpts:

Growth versus inflation

The RBI Act has given us a very clear mandate. Our primary objective is inflation, price stability, keeping in view the growth objective. So we will continuously focus on that and try to meet these objectives. We will try to align inflation with the target that has been given to us, and at the same time, supporting growth at present as the [MPC] resolution also says we felt that the time has come that we can be more supportive of growth, because inflation is coming down and is expected to go down. However, we will maintain a neutral stance so that we are able to proactively respond to the evolving macroeconomic situations.

On the Rupee slide

The latest rupee per dollar rate was taken into account while making all our projections. We also do various sensitivity analyses

A new stance

A few critical regulatory moves in RBI's first monetary policy under new Governor



SANJAY MALHOTRA

■ Cross-border card deals to carry **Additional Factor of Authentication facility**

■ Working group to **review trading and settlements timings** of RBI-regulated financial markets

■ Home loans linked to **EBLR** (external benchmark lending rate) **to be cheaper now**, those linked to **MCLR** (Marginal cost of funds based lending rate) **to see effect in 6 months**

■ Launch of **forward contracts** in Govt. securities mullied

Indian banks to have 'bank.in' Internet domain, NBFCs 'fin.in' to curb cyberfraud

while making our projections. The exchange rate is a matter of demand and supply. We should really not be looking at day to day kind of a volatility. It is more the long term rate that we should be looking at, not only for the rupee, but also for other asset classes like the Sensex or Nifty, or gold prices or other asset prices.

A depreciated rupee certainly puts pressure on inflation. But at the same time, global uncertainties are also a higher worry for us. Even if the trade tariff wars were not to play out, just the uncertainty in itself is something which is worrisome, and because that has direct impact on growth, on investment decisions, on consumption expenditure decisions

The latest rupee per dollar rate was taken into account while making all our projections

which get deferred. So let's keep in mind that the appreciation of the dollar, and the depreciation of the rupee is actually linked to this uncertainty. This uncertainty being the underlying cause, is not good for growth, and it's not good for imported inflation. We all need to be cognisant about it.

On the Budget

The Budget is an excellent one, both from the growth and inflation perspectives. The fiscal deficit has been curtailed at 4.4%

of GDP, even below the indicated glide path rate of 4.5% of GDP in 2025-26. Also, 46% of the Consumer Price Index (CPI) basket comprises of food. So I am very pleased that agriculture gets the prime focus. It will also help us in controlling inflation, especially with the programmes on vegetables and fruits, which contribute 6% and 2.9% to the CPI, respectively. Pulses also played a major role in recent inflation bouts, and there is a mission for pulses' output too.

On 7% growth hopes

These are difficult questions but nevertheless, I would like to stick my neck out and say 'Certainly'. India can achieve a 7%-plus growth rate. We should certainly aspire for that.



Budget's focus on vegetables, fruits and pulses is a positive for inflation: RBI Governor

बजट का सब्जियों, फलों और दालों पर ध्यान देना मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक: आरबीआई गवर्नर

"When you go to an exam, what do you aspire for? Some aspire to just pass it, some excel. At the RBI, we like to be on top of everything," Sanjay Malhotra remarked on inflation management.

"जब आप परीक्षा में जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? कुछ सिर्फ पास होना चाहते हैं, कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। आरबीआई में, हम हर चीज़ में शीर्ष पर रहना पसंद करते हैं," संजय मल्होत्रा ने मुद्रास्फीति प्रबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा।

Growth versus inflation

विकास बनाम मुद्रास्फीति

- The RBI Act provides a **clear mandate**: the **primary objective** is inflation, **price stability**, while also keeping in view **growth objectives**.
आरबीआई अधिनियम एक स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है: प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता है, साथ ही विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।
- The RBI aims to **align inflation with targets**, while also supporting **economic growth**, as inflation is **declining** and is **expected to decrease further**.
आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्यों के अनुरूप करना है, साथ ही आर्थिक विकास का समर्थन करना है, क्योंकि मुद्रास्फीति घट रही है और आगे और कम होने की उम्मीद है।
- RBI will maintain a **neutral stance** to **proactively respond** to **macroeconomic conditions**.
आरबीआई तटस्थ रुख बनाए रखेगा ताकि व्यापक आर्थिक परिस्थितियों का सक्रिय रूप से जवाब दिया जा सके।

On the Rupee slide

रुपये में गिरावट पर

- The latest **rupee per dollar rate** was considered in all **projections**, along with **sensitivity analyses**.
नवीनतम रुपये प्रति डॉलर दर को सभी अनुमानों में शामिल किया गया, साथ ही संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- The **exchange rate** depends on **demand and supply**, so daily volatility should not be a concern; the focus should be on **long-term trends**.
विनिमय दर मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, इसलिए दैनिक अस्थिरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए; दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
- A **depreciated rupee** puts pressure on **inflation**, but **global uncertainties** are a bigger concern, affecting **growth, investments, and consumption**.
कमजोर रुपया मुद्रास्फीति पर दबाव डालता है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएँ एक बड़ी चिंता हैं, जो विकास, निवेश और उपभोग को प्रभावित करती हैं।
- **Dollar appreciation** and **rupee depreciation** are linked to **global uncertainties**, which negatively impact **growth and imported inflation**.
डॉलर की मजबूती और रुपये की गिरावट वैश्विक अनिश्चितताओं से जुड़ी हुई है, जो विकास और आयातित मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है।

On the Budget

बजट पर

- The **fiscal deficit** is set at **4.4% of GDP**, which is **better than the projected 4.5% for 2025-26**.
वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.4% रखा गया है, जो 2025-26 के लिए अनुमानित 4.5% से बेहतर है।
- **46% of the Consumer Price Index (CPI) basket** consists of **food items**, making **agriculture a key focus** in the budget.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की 46% टोकरी खाद्य पदार्थों से बनी है, जिससे बजट में कृषि को प्राथमिकता दी गई है।
- **Vegetables and fruits** contribute **6% and 2.9%** to **CPI**, and **targeted programs** in these areas will help **control inflation**.
सब्जियां और फल CPI में 6% और 2.9% का योगदान देते हैं, और इन क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करेंगे।
- **Pulses**, which played a **key role in recent inflation spikes**, have a **dedicated mission** to **increase production**.
हाल की मुद्रास्फीति बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दालों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया गया है।

On 7% growth hopes

7% विकास दर की उम्मीद पर

- **Achieving 7%+ growth** is **challenging**, but **definitely possible** for India.
7% से अधिक की विकास दर प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से संभव है।
- India should **aspire for a growth rate above 7%**.
भारत को 7% से अधिक की विकास दर की आकांक्षा रखनी चाहिए।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TOPICS COVERED (GS Paper IV and Essay)

1. The shifting sands of fandom: how toxicity has bled into sports following / प्रशंसकों की बदलती दुनिया: खेलों में किस तरह विषाक्तता फैल गई है

GETTY IMAGES



The shifting sands of fandom: how toxicity has bled into sports following

Increasingly, it is not enough to love a player unabashedly — that affection has to be made coarse with a hatred directed at a teammate or rival of similar stature. When devotion morphs into an obsessive sense of ownership, you can't praise someone without insulting another

GS Paper IV: Ethics

K.C. Vijaya Kumar

Sport's acoustic heart often resides within the claps that fans offer. The rhythmic fusion of two palms, multiple throats finding a common expression and the collective surge of adrenaline inspire athletes to check the elasticity of their limbs and the capacity of their lungs, and help them chase miracles.

A shared ecstasy binds the sportsperson and the adoring followers. On the flipside, despair quadruples too when a loss is encountered or an injury derails a sporting campaign. This symbiosis between the performer and the observers of ten gains a religious fervour and a hypnotic essence. You sense it when a musician performs at a packed venue or while a goal is scored in a football game at a heaving stadium.

Feeding the ego

Fandom also feeds the athlete's ego, enhances confidence and, as cricketer folklore goes, made W.G. Grace tell an umpire: "They came to see me bat, not you umpire." This reverence and affection, seasoned with the frisson of first-love

In an ecosystem mired in nationalism, club loyalties, corporate ownership and the evolution of star-athletes as brands, the gentle follower is becoming a rare species

excitement, makes fans idolise players, compare eras, and equally draw relief and joy from the performance of their heroes.

This leaning of self-esteem upon the player's calibre is fine as long as performances follow an upward graph, but when the pencil dips, a dark sorrow squeezes inside. All fans are used to this roller-coaster ride. It is never easy but it is one thing they have made their peace with, at least that was the case a few decades back.

Cut to the present, fandom often means tight boxes, the kind that triggers claustrophobia and spreads cynicism. It is not enough to love a player unabashedly but that affection has to be made coarse with a counter-hatred directed at another sportsperson of similar stature, and it could be a teammate or a rival.

It is a situation in which to praise someone, it becomes essential to run down another personality. Duopoly in movies, sport and the larger arts is a reality. And duopolies catalyse intense rivalries between fans split down the centre. A genuine affection morphs into an obsessive sense of ownership and, in the long run, breeds toxicity.

In Indian cricket, the current joust is between the loyalists of Rohit Sharma and Virat Kohli. One's achievement is pitted against the other's failure. One's fitness is pitted against the other's seeming lack of it. And a caustic one-liner like 'make Yo-Yo tests mandatory for selection' is flung around in social media. Despite all the woke-spirit rippling through X, formerly Twitter, equally it is a space for mean barbs hurled by fans masquerading under false names.

This fandom will keep an eye on all social-media handles, and the wife of the favoured athlete becomes a 'bhabi'. A needless emotional intimacy is sought, the right to trouble the celebrity sportsperson for autographs and selfies is seemingly garnered, and equally, his or her rival is loathed.

Fans with fangs

Judgements are often aired without filters. The concerned athlete may not even know such a fandom exists but it does and often it bares fangs. If a collective rage fuels a false sense of nationalism while observing team-sport, an individual kinship bordering on the obsessive is sought to be the glue between the fan and his or her favourite star.

The pitfalls of the second-mentioned attribute has been dealt with in movies like 'Fan' in Hindi and 'Driving Licence' in Malayalam. The nationalistic fan like Sudhir Kumar Chaudhary,

For the individual blinded by his love for a champion, everyone else in the sporting realm is presumed to be a parasite that has to be exterminated through bruising words and memes

who blows a conch and daubs the tricolour all over his torso besides proclaiming undying love for Sachin Tendulkar, is harmless in the sense that he adds colour and passion to the venue. And his emotional graph won't tilt towards the malicious word or the violent act.

But for the individual blinded by his love for that singular champion, everyone else in the sporting realm is presumed to be a parasite that has to be exterminated through bruising words and memes. It is a ghastly reality that has tainted the community vibe of watching sport.

The innocence of the old days is just a fading memory. An eye was kept on the John McEnroe-Bjorn Borg rivalry, the volleys between Boris Becker and Stefan Edberg, the race for opening honours between Sunil Gavaskar and Geoffrey Boycott, and the informal competition between the four great all-rounders — Imran Khan, Ian Botham, Kapil Dev and Richard Hadlee. All this did not cause acidity and the need to reach out for Gelusil.

Even in the Roger Federer-Rafael Nadal era, with its fandom split between aesthetic-precision and rugged-grace, the friendship the two shared, and the awareness that they shaped each other's legacy, helped cool the tempers of their followers. But these are exceptions. Even if there are some abrasive turns, tennis does have a spine of friendship, evident in the sisterhood between Martina Navratilova and Chris Evert.

But present-day toxicity is real. Insults are presumed, insinuations are cultivated and strangely the failure of the rival is actively sought and then gloated about. In all this gutter-level discourse, the primary reason we all played and fell in love with sport is forgotten. It is also a slobber that enhanced Tom Cruise's 1996 flick 'Jerry Maguire'.

As a toddler kicking a ball or a child swinging a plastic bat, we first experienced the dopamine effect. It was all feel-good. At that time, applause did not matter, nor did a fat bank balance. 'Dance like nobody's watching, love like you have never been hurt' is an eternal pop-culture saying. There is an innocence to this line that ideally should have enveloped sport fandom too.

However, in an ecosystem mired in nationalism, club loyalties, corporate ownership and the evolution of star-athletes as brands by themselves, the gentle follower liking the thud of red cherry on willow or the twang of a tennis racket's strings whispering to a yellow ball is becoming a rare species. Titles won, earnings secured are all that matter.

Manifesting the worst

Statistics and commerce are doing a tap-dance while the poetry in a forehand cross-court, the leap over a 110m hurdle and a cover drive is forgotten. The fallacy to presume that an athlete is a superhero or superwoman and to portray everyone else in the same zone as a villain is a terrible manifestation of the worst of fandom.

At times, television channels, too, add to the fire, especially when they play up the Indo-Pak rivalry in cricket. The low-brow promotional campaigns are steeped in jingoism and feed those baying for blood on the turf. An emotional investment in sport and the resultant catharsis are two sides of the same coin, but to marinate that in hatred and spew vitriol on social media or in the comments sections of newspapers is terrible.

It is a sordid reality that genuine lovers of sport have to deal with even when the defining image for most of us is Federer and Nadal breaking down in tears while the former embraced his twilight.



The shifting sands of fandom: how toxicity has bled into sports following

प्रशंसकों की बदलती दुनिया: खेलों में किस तरह विषाक्तता फैल गई है

Increasingly, it is not enough to love a player unabashedly — that affection has to be made coarse with hatred directed at a teammate or rival of similar stature. When devotion morphs into an obsessive sense of ownership, you can't praise someone without insulting another

धीरे-धीरे, किसी खिलाड़ी से बेहिचक प्यार करना ही काफी नहीं रह गया है - उस भावना को किसी साथी या प्रतिद्वंद्वी के प्रति घृणा से भर दिया जाना चाहिए। जब समर्पण स्वामित्व की जुनूनी भावना में बदल जाता है, तो आप किसी की प्रशंसा दूसरे का अपमान किए बिना नहीं कर सकते

The Heart of Sports: Fandom and the Athlete

खेलों का दिल: फैंडम और खिलाड़ी

- Sport's **acoustic heart** often resides within the **claps of fans**. The rhythmic fusion of two palms, multiple throats finding a common expression, and the collective surge of adrenaline inspire athletes.
खेल का **ध्वनिक दिल** अक्सर **प्रशंसकों के ताली बजाने** में होता है। दो हथेलियों का तालमेल, कई गले एक सामान्य अभिव्यक्ति खोजते हैं, और एड्रेनालाईन की सामूहिक वृद्धि खिलाड़ियों को प्रेरित करती है।
- Fans help athletes check the **elasticity of their limbs** and the **capacity of their lungs**, and motivate them to chase **miracles**.
प्रशंसक खिलाड़ियों को उनके **हड्डियों की लचीलापन** और **फेफड़ों की क्षमता** की जांच करने में मदद करते हैं, और उन्हें **चमत्कारी प्रदर्शन** का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- A shared **ecstasy** binds the **sportsperson and their followers**.
एक साझा **उत्साह** खेल के **खिलाड़ी और उनके अनुयायी** को जोड़ता है।
- **Despair** also quadruples when a loss occurs or an injury derails a sporting campaign. जब हार होती है या कोई चोट खेल अभियान को पटरी से उतार देती है, तो **निराशा** भी चार गुना बढ़ जाती है।
- This symbiosis between the performer and the observers often gains a **religious fervour** and a **hypnotic essence**.
प्रदर्शन करने वाले और दर्शकों के बीच यह सहजीवन अक्सर एक **धार्मिक जोश** और एक **हिप्नोटिक सार** प्राप्त कर लेता है।
- You sense this when a **musician performs at a packed venue** or when a **goal is scored in a football game at a heaving stadium**.



आप इसे तब महसूस करते हैं जब एक संगीतकार एक भरे हुए स्थल पर प्रदर्शन करता है या जब फुटबॉल मैच में एक गोल किया जाता है एक संचालित स्टेडियम में।

Fandom and Its Influence on the Athlete

फैंडम और इसका खिलाड़ी पर प्रभाव

- Fandom feeds the athlete's ego, enhances confidence, and boosts the athlete's self-perception.
फैंडम खिलाड़ी के अहंकार को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है, और खिलाड़ी की आत्म-धारणा को प्रोत्साहित करता है।
- As cricketing folklore goes, W.G. Grace once told an umpire: "They came to see me bat, not you umpire."
क्रिकेट की लोककथाओं के अनुसार, W.G. ग्रेस ने एक बार अंपायर से कहा था: "वे मुझे बल्लेबाजी देखने आए थे, तुम्हें नहीं अंपायर।"
- Fans idolize players, compare eras, and draw relief and joy from the performance of their heroes.
प्रशंसक खिलाड़ियों की पूजा करते हैं, युगों की तुलना करते हैं, और अपने नायक के प्रदर्शन से राहत और आनंद प्राप्त करते हैं।
- This leaning of self-esteem upon the player's calibre is fine as long as performances follow an upward graph.
खिलाड़ी की क्षमता पर आत्म-सम्मान का झुकाव ठीक है, जब तक प्रदर्शन ऊपर की ओर बढ़ते ग्राफ का अनुसरण करते हैं।
- When the graph dips, dark sorrow squeezes inside.
जब ग्राफ नीचे गिरता है, तो अंधेरे दुःख के भीतर समा जाते हैं।
- Fans are used to this roller-coaster ride, but they have made their peace with it.
प्रशंसक इस रोलर-कोस्टर यात्रा के लिए अभ्यस्त होते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ शांति बना ली है।

The Toxic Side of Modern Fandom

आधुनिक फैंडम का विषैला पक्ष

- Fandom now means tight boxes, triggering claustrophobia and spreading cynicism.
अब फैंडम का मतलब संकरे बक्से होते हैं, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया को उत्तेजित करते हैं और निंदात्मकता फैलाते हैं।
- It is not enough to love a player; affection must be coarse with counter-hatred for another sportsperson.
एक खिलाड़ी से प्यार करना अब पर्याप्त नहीं है; स्नेह को कठोर बनाना पड़ता है और दूसरे खिलाड़ी के लिए विरोधी-नफ़रत होनी चाहिए।
- Duopoly in movies, sport, and larger arts creates intense rivalries between fans.
सिनेमा, खेल और कला में द्विपक्षीयता प्रशंसकों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धाओं को जन्म देती है।



- Genuine affection morphs into an **obsessive sense of ownership**, leading to **toxicity**.
वास्तविक स्नेह एक आक्रामक स्वामित्व की भावना में बदल जाता है, जो विषाक्तता का कारण बनता है।
- In **Indian cricket**, the rivalry is between the loyalists of **Rohit Sharma and Virat Kohli**.
भारतीय क्रिकेट में, प्रतिस्पर्धा रोहित शर्मा और विराट कोहली के समर्थकों के बीच है।
- One's achievement is pitted against the other's failure, and their **fitness** is constantly compared.
एक की उपलब्धि को दूसरे की विफलता के खिलाफ रखा जाता है, और उनकी फिटनेस लगातार तुलना की जाती है।
- A **caustic one-liner** like 'make **Yo-Yo tests mandatory for selection**' is thrown around on **social media**.
कठोर एक-लाइनर जैसे 'Yo-Yo टेस्ट चयन के लिए अनिवार्य करें' सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है।
- **Fans on social media** closely monitor all handles, and the wife of the favored athlete becomes a '**bhabi**'.
सोशल मीडिया पर प्रशंसक सभी हैंडल्स पर कड़ी नजर रखते हैं, और पसंदीदा खिलाड़ी की पत्नी 'भाभी' बन जाती है।
- A **needless emotional intimacy** is sought, and the right to trouble the celebrity athlete for autographs and selfies is seemingly gained.
एक अनावश्यक भावनात्मक घनिष्ठता चाही जाती है, और हस्ताक्षरों और सेल्फी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी को परेशान करने का अधिकार कथित रूप से प्राप्त किया जाता है।
- Similarly, the athlete's rival is often **loathed**.
इसी तरह, खिलाड़ी का प्रतिद्वंद्वी अक्सर घृणा किया जाता है।

Fans with Fangs

दांतों वाले प्रशंसक

- **Judgements are often aired without filters**, and the concerned athlete may not even know such a fandom exists, but it does, and often it bares **fangs**.
निर्णय अक्सर बिना फ़िल्टर के व्यक्त किए जाते हैं, और संबंधित खिलाड़ी को यह भी नहीं पता हो सकता कि ऐसा फैंडम मौजूद है, लेकिन यह है, और अक्सर यह दांत दिखाता है।
- If a **collective rage** fuels a false sense of **nationalism** while observing team-sport, an individual kinship bordering on the obsessive is sought to be the glue between the fan and their **favourite star**.
यदि एक सामूहिक गुस्सा टीम खेलों को देखते समय झूठी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाता है, तो एक व्यक्ति का संबंध, जो लगभग आकर्षक होता है, फैन और उनके प्रिय सितारे के बीच एक जोड़ी बनाने की कोशिश करता है।
- The **pitfalls** of obsessive fandom have been dealt with in movies like '**Fan**' in Hindi and '**Driving Licence**' in Malayalam.



जिद्दी फैंडम के खतरों को हिंदी फिल्म 'फैन' और मलयालम फिल्म 'डाइविंग लाइसेंस' में दिखाया गया है।

- The **nationalistic fan** like Sudhir Kumar Chaudhary, who blows a conch and daubs the tricolour all over his torso besides proclaiming undying love for **Sachin Tendulkar**, is harmless and adds **colour** and **passion** to the venue.

राष्ट्रीयवादी प्रशंसक जैसे सुधीर कुमार चौधरी, जो शंख बजाते हैं और अपने शरीर पर तिरंगा लगाते हैं, इसके अलावा **सचिन तेंदुलकर** के लिए अपार प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वे **हानिरहित** होते हैं और स्थल में **रंग** और **जोश** जोड़ते हैं।

- His **emotional graph** won't tilt towards the malicious word or the violent act. उनका **भावनात्मक ग्राफ** कभी भी दुर्भावनापूर्ण शब्द या हिंसक कृत्य की ओर नहीं झुकेगा।
- But for the individual blinded by **love** for that singular champion, everyone else in the sporting realm is presumed to be a **parasite** to be exterminated through **bruising words and memes**.

लेकिन उस एकल विजेता के लिए **प्रेम** से अंधा व्यक्ति मानता है कि खेल की दुनिया में बाकी सभी लोग **परजीवी** हैं, जिन्हें **कठोर शब्दों और मीमों** से नष्ट किया जाना चाहिए।

- This is a **ghastly reality** that has tainted the community vibe of watching sport. यह एक **भयंकर वास्तविकता** है जिसने खेल देखने के सामूहिक वातावरण को दागदार कर दिया है।

The Innocence of the Past

अतीत की मासूमियत

- The **innocence of the old days** is now just a fading memory.

पुराने दिनों की **मासूमियत** अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई है।

- An eye was kept on the **John McEnroe-Bjorn Borg rivalry**, the volleys between **Boris Becker and Stefan Edberg**, the race for opening honours between **Sunil Gavaskar and Geoffrey Boycott**, and the informal competition between the **four great all-rounders** — Imran Khan, Ian Botham, Kapil Dev and Richard Hadlee.

जॉन मैकएन्करो-बीजॉर्न बर्ग प्रतिस्पर्धा, **बोरिस बेकर और स्टेफन एडबर्ग** के बीच वॉली, **सुनील गावस्कर और जियोफ्री बॉयकोट** के बीच ओपनिंग सम्मान की दौड़, और **चार महान ऑलराउंडर्स** -

इमरान खान, इयान बॉथम, कपिल देव और रिचर्ड हैडली के बीच अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान रखा जाता था।

- All this did not cause **acidity** and the need to reach for **Gelusil**. इन सबने **अम्लता** पैदा नहीं की और **गेलुसिल** लेने की आवश्यकता नहीं पाई।

The Roger Federer-Rafael Nadal Era

रोजर फेडरर-राफेल नडाल युग

- Even in the **Roger Federer-Rafael Nadal era**, with its fandom split between **aesthetic-precision** and **rugged-grace**, the **friendship** between the two helped cool the tempers of their followers.



यहां तक कि रोजर फेडरर-राफेल नडाल युग में, जिसमें फैंडम सौंदर्यात्मक-प्रेसिशन और कठोर-आदर के बीच बंटा हुआ था, दोनों के बीच की दोस्ती ने उनके अनुयायियों के क्रोध को शांत करने में मदद की।

- Even if there are some **abrasive turns**, tennis still has a spine of **friendship**, evident in the **sisterhood** between **Martina Navratilova** and **Chris Evert**.

यदि कुछ कठोर मोड़ आते हैं, तो भी टेनिस में दोस्ती की रीढ़ है, जो मार्टीना नवरातिलोवा और क्रिस एवर्ट के बीच की बहनापे से स्पष्ट है।

The Real Toxicity of Modern Fandom

आधुनिक फैंडम की असली विषाक्तता

- **Insults** are presumed, **insinuations** are cultivated, and the failure of the rival is actively sought and **gloated about**.

अपमान माने जाते हैं, इशारे बनाए जाते हैं, और प्रतिद्वंद्वी की विफलता सक्रिय रूप से मांगी जाती है और घमंड किया जाता है।

- In all this **gutter-level discourse**, the primary reason we all played and fell in love with sport is forgotten.

इस सभी गटर-स्तरीय संवाद में, हम सभी ने खेल खेला और उससे प्रेम किया, इसका मुख्य कारण भूल जाता है।

- It is also a subtext that enhanced **Tom Cruise's 1996 flick 'Jerry Maguire'**.

यह भी एक उपपाठ है जिसने टॉम क्रूज़ की 1996 की फिल्म 'जेरी मैगुइरे' को बढ़ाया।

The Evolution of Fandom

फैंडम का विकास

- As a **toddler kicking a ball** or a child swinging a plastic bat, we first experienced the **dopamine effect**. It was all feel-good.

एक बच्चे के रूप में बॉल को किक करना या एक बच्चे द्वारा प्लास्टिक बैट से स्विंग करना, हमने सबसे पहले डोपामाइन प्रभाव का अनुभव किया। यह सब अच्छा महसूस हुआ।

- At that time, **applause** did not matter, nor did a **fat bank balance**.

उस समय, ताली मायने नहीं रखती थी, न ही एक मोटा बैंक बैलेंस।

- "Dance like nobody's watching, love like you have never been hurt" is an **eternal pop-culture saying**.

"नृत्य करो जैसे कोई नहीं देख रहा, प्रेम करो जैसे कभी चोट नहीं खाई हो" एक सदाबहार पॉप-संस्कृति कथन है।

- There is an **innocence** to this line that ideally should have enveloped **sport fandom** too. इस पंक्ति में एक मासूमियत है जो आदर्श रूप से खेल फैंडम को भी घेर लेनी चाहिए थी।

- However, in an ecosystem mired in **nationalism**, **club loyalties**, **corporate ownership**, and the evolution of **star-athletes** as brands, the gentle follower enjoying the thud of red cherry on willow or the twang of a tennis racquet's strings is becoming a rare species.



हालांकि, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में जो राष्ट्रीयता, क्लब निष्ठा, कॉर्पोरेट स्वामित्व, और स्टार-एथलीटों के ब्रांड बनने में फंसा हुआ है, वह सौम्य अनुयायी जो लकड़ी पर लाल चेरी की आवाज़ या टेनिस रैकेट की तंतुओं की आवाज़ का आनंद लेता है, अब एक दुर्लभ प्रजाति बनता जा रहा है।

- **Titles won, earnings secured** are all that matter.
खिताब जीते गए, आय सुरक्षित ही मायने रखते हैं।

Manifesting the Worst

सबसे खराब रूप में प्रकट होना

- **Statistics and commerce** are doing a tap-dance while the **poetry** in a forehand cross-court, the leap over a **110m hurdle**, and a cover drive is forgotten.

सांख्यिकी और वाणिज्य नृत्य कर रहे हैं, जबकि एक फोरहैंड क्रॉस-कोर्ट, 110 मीटर की बाधा को कूदना, और एक कवर ड्राइव की कविता भूल गई है।

- The fallacy to presume that an athlete is a **superman** or **superwoman** and to portray everyone else in the same zone as a **villain** is a terrible manifestation of the worst of fandom.

यह भ्रम कि एक एथलीट सुपरमैन या सुपरवुमन है और बाकी सभी को उसी क्षेत्र में विलेन के रूप में चित्रित करना, फैंडम के सबसे बुरे रूप का भयंकर प्रदर्शन है।

- At times, **television channels** too, add to the fire, especially when they play up the **Indo-Pak rivalry** in cricket.

कभी-कभी, टेलीविज़न चैनल्स भी आग में घी डालते हैं, खासकर जब वे क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हैं।

- The low-brow **promotional campaigns** are steeped in **jingoism** and feed those baying for **blood** on the turf.

निम्न-स्तरीय प्रचार अभियानों में जिंगोइज़म से भरपूर होते हैं और जो लोग मैदान पर रक्त के लिए चिल्लाते हैं, उन्हें यह भोजन कराते हैं।

- An **emotional investment** in sport and the resultant **catharsis** are two sides of the same coin, but to marinate that in **hatred** and spew **vitriol** on social media or in the comments sections of newspapers is terrible.

खेल में भावनात्मक निवेश और उसका परिणामस्वरूप कैथार्सिस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उसे नफरत में डुबोकर सोशल मीडिया या समाचार पत्रों की टिप्पणियों में विष वमन करना भयंकर है।

- It is a sordid **reality** that genuine lovers of sport have to deal with, even when the defining image for most of us is **Federer** and **Nadal breaking down in tears** while the former embraced his twilight.

यह एक दुराचारपूर्ण वास्तविकता है जिसे खेल के वास्तविक प्रेमियों को झेलना पड़ता है, यहां तक कि जब हमारे अधिकांश के लिए परिभाषित छवि फेडरर और नडाल का आंसुओं में टूटना है, जबकि पहले ने अपनी संन्यास की ओर कदम बढ़ाया।



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



TOPICS COVERED (PCS Special)

- 1. The Hindu Group launches filmmaker Krishnaswamy's book on his travels / हिंदू समूह ने फिल्म निर्माता कृष्णास्वामी की यात्रा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया**
- 2. Nine submarines, 65 ships taking part in TROPEX exercise / ट्रॉपेक्स अभ्यास में नौ पनडुब्बियां, 65 जहाज हिस्सा ले रहे हैं**
- 3. Ajay Reddy, ex-captain of visually challenged cricket team, retires / दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी ने संन्यास ले लिया**
- 4. TN men, Maharashtra women jolt defending champs for tennis titles / तमिलनाडु पुरुष और महाराष्ट्र महिला ने टेनिस खिताब के लिए गत चैंपियन को हराया**
- 5. Kerala regains football gold after 28 years / केरल ने 28 साल बाद फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



The Hindu Group launches filmmaker Krishnaswamy's book on his travels

PCS

The Hindu Bureau
CHENNAI

Acclaimed documentary and television filmmaker S. Krishnaswamy's book, *Voyages Retraced: India's Influence in East Asia*, brought out by The Hindu Group of Publications, was launched here on Friday.

The book gives an insight into ancient India's impact on south-east Asian countries, and a phase in history when Indian sailors travelled to countries such as Vietnam, Laos, Cambodia, and Thailand.

It is a narrative of the author's travels between 2005 and 2010.

Nirmala Lakshman, Chairperson, The Hindu Group Publishing Private Limited (THGPPL), and N. Ram, Director, THGPPL, launched the book. Author and chairman of Krishnaswamy Associates, Krishnaswamy, and research collaborator Mohana Krishnaswamy received a copy.

Tracing Mr. Krishnaswamy's journey as a documentary filmmaker, Mr. Ram said while his father and director, K. Subrahmaniam, was an iconic figure



THGPPL Chairperson Nirmala Lakshman and Director N. Ram launching S. Krishnaswamy's book in Chennai on Friday. With them are Mr. Krishnaswamy, his daughter Latha Krishna, and the book's research collaborator Mohana Krishnaswamy. R. RAGU

in Tamil cinema, he embarked on a path with purposeful message and founded Krishnaswamy Associates to make non-fiction films. Besides his "powerful film", *Indus Valley to Indira Gandhi*, he produced films on complex problems of Sri Lanka and Punjab, Mr. Ram said.

Earlier, Suresh Namath, Editor, *The Hindu*, said it was a compelling compilation on south-east Asian countries with photographs by cinematographer Madhu Ambat.

Mr. Krishnaswamy recalled his initial days when

journalistically independent, non-fiction films did not enjoy much market.

Recounting the challenges in depicting the "real history" of India, he spoke on his four-hour film on the subject, *Indus Valley to Indira Gandhi*, that ran into controversy. Latha Krishna, his daughter and filmmaker, was present.

The book is priced at ₹499 as a special launch offer till February 14, and is available at <https://publications.thehindugroup.com/bookstore>.



The Hindu Group launches filmmaker Krishnaswamy's book on his travels

हिंदू समूह ने फिल्म निर्माता कृष्णास्वामी की यात्रा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया

Acclaimed Documentary and Television Filmmaker S. Krishnaswamy's Book Launch प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन फिल्म निर्माता एस. कृष्णास्वामी की किताब का विमोचन

S. Krishnaswamy's book, *Voyages Retraced: India's Influence in East Asia*, brought out by The Hindu Group of Publications, was launched on Friday.

एस. कृष्णास्वामी की किताब, *Voyages Retraced: इंडिया की पूर्वी एशिया में प्रभाव*, जिसे द हिंदू ग्रुप

ऑफ पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किया गया है, शुक्रवार को लॉन्च की गई।

- The book gives an insight into **ancient India's impact** on **south-east Asian countries**, and a phase in history when Indian sailors travelled to countries such as **Vietnam, Laos, Cambodia, and Thailand**.

यह किताब प्राचीन भारत के प्रभाव पर एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों पर था, और एक ऐसा ऐतिहासिक दौर जब भारतीय नाविक वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और थाईलैंड जैसे देशों में यात्रा करते थे।

- It is a narrative of the author's travels between **2005 and 2010**. यह लेखक की यात्रा का विवरण है जो **2005 से 2010** के बीच की है।



- **Nirmala Lakshman**, Chairperson, **The Hindu Group Publishing Private Limited (THGPPL)**, and **N. Ram**, Director, THGPPL, launched the book.
निर्मला लक्ष्मण, अध्यक्ष, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (THGPPL), और N. राम, निदेशक, THGPPL, ने किताब का विमोचन किया।
- Author and chairman of **Krishnaswamy Associates**, **Krishnaswamy**, and research collaborator **Mohana Krishnaswamy** received a copy.
लेखक और कृष्णस्वामी एसोसिएट्स के अध्यक्ष, कृष्णस्वामी, और शोध सहयोगी मोहना कृष्णस्वामी ने एक प्रति प्राप्त की।
- Tracing Mr. Krishnaswamy's journey as a **documentary filmmaker**, Mr. Ram mentioned his father and director, **K. Subrahmanyam**, was an iconic figure in **Tamil cinema**.
श्री कृष्णस्वामी की यात्रा को एक डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माता के रूप में बताते हुए, श्री राम ने कहा कि उनके पिता और निर्देशक, **K. सुब्रहमण्यन**, **तमिल सिनेमा** में एक आइकोनिक शख्सियत थे।
- He founded **Krishnaswamy Associates** to make **non-fiction films**.
उन्होंने कृष्णस्वामी एसोसिएट्स की स्थापना की ताकि वे गैर-काल्पनिक फिल्में बना सकें।
- Besides his "**powerful film**", **Indus Valley to Indira Gandhi**, he produced films on complex problems of **Sri Lanka** and **Punjab**, Mr. Ram said.
उनके "**शक्तिशाली फिल्म**", **इंडस वैली टू इंदिरा गांधी** के अलावा, उन्होंने श्रीलंका और पंजाब की जटिल समस्याओं पर फिल्में बनाईं, श्री राम ने कहा।
- Earlier, **Suresh Nambath**, Editor, **The Hindu**, called it a **compelling compilation on south-east Asian countries** with photographs by cinematographer **Madhu Ambat**.
पहले, **सुरेश नंबाथ**, संपादक, **द हिंदू**, ने इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों पर एक रोमांचक संकलन कहा, जिसमें सिनेमेटोग्राफर **मधु अंबट** द्वारा लिए गए चित्र थे।
- Mr. Krishnaswamy recalled his initial days when journalistic independent, **non-fiction films** did not enjoy much market.
श्री कृष्णस्वामी ने अपने पहले दिनों को याद किया जब पत्रकारिता स्वतंत्र थी, और गैर-काल्पनिक फिल्में ज्यादा बाजार में नहीं थीं।
- Recounting the challenges in depicting the "**real history**" of **India**, he spoke on his four-hour film on the subject, **Indus Valley to Indira Gandhi**, that ran into controversy.
भारत के "**वास्तविक इतिहास**" को चित्रित करने की चुनौतियों को बताते हुए, उन्होंने अपने चार घंटे की फिल्म **इंडस वैली टू इंदिरा गांधी** पर बात की, जो विवादों में फंसी थी।
- **Latha Krishna**, his daughter and filmmaker, was present.
लता कृष्ण, उनकी बेटी और फिल्म निर्माता, उपस्थित थीं।



Nine submarines, 65 ships taking part in TROPEX exercise

PCS

The Hindu Bureau

NEW DELHI

Indian Navy's biennial capstone Theatre Level Operational Exercise (TROPEX) is under way in the Indian Ocean Region, in which the combined fleet, comprising approximately 65 Indian Navy ships, nine submarines, and over 80 aircraft, are being "put through complex maritime operational scenarios to validate and refine the Navy's Concept of Operations".

This is conducted biennially with participation by all operational units of the Navy along with participation of Army, Air Force, and Coast Guard assets.

"TROPEX-25 is aimed at validating Indian Navy's core warfighting skills, and ensuring a synchronised, integrated response to preserve and protect national maritime security interests in a contested maritime environment against conventional, asymmetric as well as hybrid threats," the Navy said in a statement.

- The exercise aims to **validate and refine** the Navy's **Concept of Operations** through **complex maritime operational scenarios**.

इस अभ्यास का उद्देश्य जटिल समुद्री संचालन परिदृश्यों के माध्यम से नौसेना के संचालन की अवधारणा को मान्य और परिष्कृत करना है।

- This exercise is conducted **biennially**, with participation by all operational units of the Navy along with the participation of **Army, Air Force, and Coast Guard assets**.

यह अभ्यास **द्विवार्षिक** रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें नौसेना की सभी संचालन

इकाइयों के साथ-साथ सेना, वायु सेना, और तटरक्षक बल की संपत्तियों का भी सहभागिता होती है।

- TROPEX-25 is aimed at **validating Indian Navy's core warfighting skills**, and ensuring a **synchronised, integrated response** to preserve and protect **national maritime security interests** in a **contested maritime environment** against **conventional, asymmetric, and hybrid threats**.

TROPEX-25 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धकौशल की मान्यता प्राप्त करना और

सिंक्रनाइज्ड, एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है ताकि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा की

जा सके, जो एक विवादित समुद्री वातावरण में पारंपरिक, असंतुलित, और हाइब्रिड खतरों के खिलाफ हो।

Nine submarines, 65 ships taking part in TROPEX exercise

ट्रोपेक्स अभ्यास में नौ पनडुब्बियां,
65 जहाज हिस्सा ले रहे हैं

Indian Navy's Biennial Capstone Theatre
Level Operational Exercise (TROPEX)

भारतीय नौसेना की द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर
स्तर संचालन अभ्यास (TROPEX)

- Indian Navy's biennial capstone **Theatre Level Operational Exercise (TROPEX)** is under way in the **Indian Ocean Region**, involving the combined fleet, comprising approximately **65 Indian Navy ships, nine submarines**, and over **80 aircraft**.

भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक थिएटर स्तर संचालन

अभ्यास (TROPEX) भारतीय महासागर क्षेत्र में चल

रहा है, जिसमें संयुक्त बेड़ा शामिल है, जिसमें लगभग

65 भारतीय नौसेना के जहाज, नौ पनडुब्बियाँ, और 80

से अधिक विमान शामिल हैं।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



- The Navy emphasized these objectives in a statement.
नौसेना ने इन उद्देश्यों को एक बयान में प्रमुखता से कहा।



Ajay Reddy.

Ajay Reddy, ex-captain of visually challenged cricket team, retires

PCS
Sports Bureau
HYDERABAD

Arjuna Awardee and former Indian cricket captain (visually challenged), Ajay Reddy, announced his retirement from the sport.

Ajay played 101 internationals including T20s in a career spanning 15 years and led India to a ODI World Cup win, two T20 World Cup victories and an Asia Cup title.

He was born in Gurazala in Andhra Pradesh and lost his left eye in a freak accident when he was just four. His parents were farmers.

Ajay Reddy, ex-captain of visually challenged cricket team, retires

दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी ने संन्यास ले लिया

Arjuna Awardee and Former Indian Cricket Captain Ajay Reddy Announces Retirement

अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी ने अपने संन्यास की घोषणा की

- **Ajay Reddy**, an **Arjuna Awardee** and former **Indian cricket captain** (visually challenged), announced his retirement from the sport.

अजय रेड्डी, एक अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान (दृष्टिहीन), ने खेल से अपने संन्यास की घोषणा की।

- Ajay played **101 internationals**, including **T20s**, in a career spanning **15 years** and led India to an **ODI World Cup win**, **two T20 World Cup victories**, and an **Asia Cup title**.

अजय ने **101 अंतरराष्ट्रीय** मैच खेले, जिसमें **T20** शामिल हैं, अपने **15 साल** के करियर में और भारत को **ODI विश्व कप जीत**, दो **T20 विश्व कप विजयों**, और **एशिया कप खिताब** दिलाए।

- He was born in **Gurazala** in **Andhra Pradesh** and lost his **left eye** in a freak accident when he was just **four**.

वह **आंध्र प्रदेश** के **गुरजाला** में जन्मे थे और जब वह केवल **चार साल** के थे, तो एक अजीब दुर्घटना में उन्होंने अपनी **बाईं आँख** खो दी।

- His parents were **farmers**.

उनके **माता-पिता किसान** थे।



TN men, Maharashtra women jolt defending champs for tennis titles



Triumphant: The TN men's and Maharashtra women's teams after their wins. RITU RAJ KONWAR

NATIONAL GAMES

PCS
Star Kavya
DEHRADUN

Manish Sureshkumar found the Parade Ground court and the ball a little too fast in the men's team final of the 38th National Games tennis competition here on Friday evening. And the 25-year-old was playing Karnataka's strong Prajwal Dev, an opponent he had lost to every time in the last few years and the second seed here in the men's singles.

But Manish pulled off an impressive three-set victory, to follow up Abhinav Sanjiv's hard-fought open-

ing singles win, as Tamil Nadu jolted defending champion Karnataka 2-0 and lifted the men's title after a 10-year break. Earlier, Maharashtra stunned two-time champion Gujarat 2-0 to take the women's title.

Prajwal had played a big role in Karnataka's triumph over Tamil Nadu at the last Games in Goa. And the Karnataka star looked dangerous as he made a nice comeback and grabbed the second set. But Manish broke his opponent in the sixth game of the third set to take a crucial 4-2 lead.

"Physically I was struggling a bit but when I got that break of his serve in the third set, I got the confidence that I can close the

match," said Manish.

"Normally, he likes to dictate a lot, this time I wanted to stay a little more aggressive. I was a bit passive at the start, but I realised that if I kept doing it I was not going to win the match. So I stepped up and attacked a bit more."

Meanwhile, Vaishnavi Adkar shocked National champion Vaidehee Chaudhari in Maharashtra's memorable win. Gujarat, which was looking for a hat-trick of National Games women's team titles after winning at home in 2022 and in Goa in 2023, was in for a shock when Zeel Desai lost to Maharashtra's Akansha Nitture in the opening singles. And Vaishnavi,

who came in next, had never won against Vaidehee the five times they had played each other before.

"But going into the match, I wasn't thinking about the past matches...I just went and played my game, I didn't hold back," said Vaishnavi who dominated the match, frequently forcing her opponent into errors.

The results (team event, finals): Men: Tamil Nadu bt Karnataka 2-0 (S. Abhinav Sanjeev bt Rishi Reddy 3-6, 7-6 (6), 6-4; Manish Sureshkumar bt Prajwal Dev 7-5, 4-6, 6-3).
Women: Maharashtra bt Gujarat 2-0 (Akansha Nitture bt Zeel Desai 6-3, 3-6, 6-3; Vaishnavi Adkar bt Vaidehee Chaudhari 6-3, 6-3).

TN men, Maharashtra women jolt defending champs for tennis titles

तमिलनाडु पुरुष और महाराष्ट्र महिला ने टेनिस खिताब के लिए गत चैंपियन को हराया



Manish Sureshkumar's Victory in Men's Team Final of 38th National Games Tennis 38वें राष्ट्रीय खेलों के टेनिस पुरुष टीम फाइनल में मनीष सुरेशकुमार की जीत

- **Manish Sureshkumar** found the **Parade Ground court** and the **ball** a little too fast in the men's team final of the **38th National Games tennis competition** on Friday evening.
मनीष सुरेशकुमार ने परेड ग्राउंड कोर्ट और बॉल को 38वें राष्ट्रीय खेलों के टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष टीम फाइनल में शुक्रवार शाम को थोड़ा तेज पाया।
- The **25-year-old** was playing **Karnataka's strong Prajwal Dev**, an opponent he had lost to every time in the last few years and the **second seed** here in the **men's singles**.
25 साल के मनीष कर्नाटका के मजबूत प्रज्वल देव के खिलाफ खेल रहे थे, जो एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था, जिसे उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हर बार हारने का सामना किया और जो यहां पुरुष सिंगल्स में दूसरे सीड थे।
- But Manish pulled off an impressive **three-set victory**, to follow up **Abhinav Sanjiv's hard-fought opening singles win**, as **Tamil Nadu jolted defending champion Karnataka 2-0** and lifted the **men's title** after a **10-year break**.
लेकिन मनीष ने एक प्रभावशाली तीन सेटों में जीत हासिल की, और अभिनव संजीव की कठिन जीत के बाद तमिलनाडु ने रक्षात्मक चैंपियन कर्नाटका को 2-0 से हराया और 10 साल के बाद पुरुष खिताब जीता।
- Earlier, **Maharashtra stunned two-time champion Gujarat 2-0** to take the **women's title**.
इससे पहले, महाराष्ट्र ने दो बार की चैंपियन गुजरात को 2-0 से हराया और महिला खिताब जीता।
- **Prajwal** had played a big role in Karnataka's triumph over Tamil Nadu at the last **Games in Goa**.
प्रज्वल ने पिछले **गोवा खेलों में कर्नाटका की तमिलनाडु पर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- The **Karnataka star** looked dangerous as he made a nice comeback and grabbed the **second set**.
कर्नाटका के सितारे ने अच्छा वापसी की और दूसरा सेट जीतकर खतरनाक दिखे।
- But **Manish broke his opponent** in the **sixth game** of the **third set** to take a crucial **4-2 lead**.
लेकिन मनीष ने तीसरे सेट के छठे गेम में अपने प्रतिद्वंद्वी को ब्रेक किया और महत्वपूर्ण 4-2 की बढ़त बनाई।
- "Physically I was struggling a bit but when I got that break of his serve in the third set, I got the confidence that I can close the match," said Manish.
"शारीरिक रूप से मैं थोड़ा संघर्ष कर रहा था लेकिन जब मैंने तीसरे सेट में उसके सर्विस ब्रेक किया, तो मुझे आत्मविश्वास मिला कि मैं मैच खत्म कर सकता हूँ," मनीष ने कहा।
- "Normally, he likes to dictate a lot, this time I wanted to stay a little more aggressive. I was a bit passive at the start, but I realised that if I kept doing it I was not going to win the match. So I stepped up and attacked a bit more."



“आमतौर पर, वह बहुत अधिक हुकूमत करना पसंद करता है, इस बार मैं थोड़ा अधिक आक्रामक रहना चाहता था। शुरुआत में मैं थोड़ा निष्क्रिय था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मैच नहीं जीतने वाला था। इसलिए मैंने कदम बढ़ाया और थोड़ा अधिक आक्रमण किया।”

- Meanwhile, **Vaishnavi Adkar** shocked **National champion Vaidehee Chaudhari** in **Maharashtra's memorable win**.

इस बीच, वैष्णवी अदकर ने राष्ट्रीय चैंपियन वैदेही चौधरी को महाराष्ट्र की यादगार जीत में चौंका दिया।

- **Gujarat**, which was looking for a **hat-trick of National Games women's team titles** after winning at home in **2022** and in **Goa in 2023**, was in for a shock when **Zeel Desai** lost to Maharashtra's **Akansha Nitture** in the opening singles.

गुजरात, जो 2022 में अपने घर और 2023 में गोवा में जीतने के बाद राष्ट्रीय खेलों के महिला टीम खिताब का हैट्रिक चाह रहा था, को तब एक झटका लगा जब जील देसाई ने महाराष्ट्र की आकांक्षा नित्तुरे से शुरुआती सिंगल्स में हार मान ली।

- And **Vaishnavi**, who came in next, had never won against **Vaidehee** the five times they had played each other before.

और वैष्णवी, जो अगले नंबर पर आई, ने अब तक वैदेही के खिलाफ कभी भी जीत नहीं हासिल की थी, जब वे एक-दूसरे के खिलाफ खेले थे।

- “But going into the match, I wasn't thinking about the past matches...I just went and played my game, I didn't hold back,” said Vaishnavi, who dominated the match, frequently forcing her opponent into errors.

“लेकिन मैच में जाने से पहले, मैं पिछले मैचों के बारे में नहीं सोच रही थी...मैं बस गई और अपना खेल खेला, मैंने पीछे नहीं हटाया,” वैष्णवी ने कहा, जिन्होंने मैच में दबदबा बनाया, और बार-बार अपने प्रतिद्वंद्वी को गलतियाँ करने पर मजबूर किया।



Drought over: The triumphant Kerala team members. SPECIAL ARRANGEMENT

Kerala regains football gold after 28 years

PCS

Stan Ravan
DEHRADUN

Kerala defeated host Uttarakhand by a lone goal and won the National Games men's football title after 28 years at Haldwani on Friday.

S. Gokul scored the match-winner in the 53rd minute. Kerala last won the gold in 1997. It finished runner-up in 2022 and took the bronze at the last Games in Goa in 2023.

Kerala was down to 10 men in the 75th minute after M. Safwan was red-carded.

Meanwhile, in archery's Indian round competition, Manish defeated his Uttar Pradesh teammate Subham 6-2 for the men's individual gold medal while Manipur's Laiphrakpam Rojina Devi won the women's title.

Athletics from today

Asian champion sprint hurdler Jyothi Yarraji, Asian Games 800m silver medallist Mohammed Afzal, Asiad triple jump bronze medallist Praveen Chithravel and quartermiler Vithya Ramraj are some of the stars who will be in

action in the athletics competition which begins on Saturday.

The results: Archery (Indian round): Men, individual, gold: Manish (UP) bt Subham (UP) 6-4. Bronze: Chingakham Nelson Singh (Man).

Women, individual, gold: Laiphrakpam Rojina Devi (Man) bt Chandni Sahu (Cht) 6-2. Bronze: Tutumoni Boro (Asm) 6-2.

Mixed team, gold: Maharashtra bt Jharkhand 6-2. **Bronze:** Assam.

Men's team, gold: Haryana bt Uttar Pradesh 5-3. **Bronze:** Maharashtra.

Women's team, gold: Haryana bt Manipur 5-3. **Bronze:** Chhattisgarh.

Goa in 2023.

केरल ने 2022 में उपविजेता और 2023 में गोवा खेलों में कांस्य पदक जीता था।

- Kerala was down to 10 men in the 75th minute after M. Safwan was red-carded. केरल को 75वें मिनट में M. सफवान को रेड कार्ड मिलने के बाद 10 खिलाड़ी रह गए थे।

Manish Wins Men's Individual Gold in Archery

मनीष ने आर्चरी में पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण जीता

- Meanwhile, in archery's Indian round competition, Manish defeated his Uttar Pradesh teammate Subham 6-2 for the men's individual gold medal. इस बीच, आर्चरी के भारतीय राउंड प्रतियोगिता में मनीष ने अपने उत्तर प्रदेश साथी शुभम को 6-2 से हराकर पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।

Kerala regains football gold after 28 years

केरल ने 28 साल बाद फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता

Kerala Defeats Uttarakhand to Win National Games Men's Football Title

केरल ने उत्तराखंड को हराकर राष्ट्रीय खेलों का पुरुष फुटबॉल खिताब जीता

- Kerala defeated host Uttarakhand by a lone goal and won the National Games men's football title after 28 years at Haldwani on Friday.

केरल ने मेज़बान उत्तराखंड को एकमात्र गोल से हराया और 28 साल बाद शुक्रवार को हल्दवानी में राष्ट्रीय खेलों का पुरुष फुटबॉल खिताब जीता।

- S. Gokul scored the match-winner in the 53rd minute.

S. गोकुल ने 53वें मिनट में मैच का विजेता गोल किया।

- Kerala last won the gold in 1997. केरल ने आखिरी बार 1997 में स्वर्ण जीता था।
- Kerala finished runner-up in 2022 and took the bronze at the last Games in



Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- Manipur's Laiphprakpam Rojina Devi won the women's title.
मणिपुर की लैप्राकपम रोजीना देवी ने महिला खिताब जीता।

Athletics Stars to Feature in Upcoming Competition

एथलेटिक्स के सितारे आगामी प्रतियोगिता में भाग लेंगे

- Athletics will begin from today, with Asian champion sprint hurdler Jyothi Yarraji, Asian Games 800m silver medallist Mohammed Afsal, Asiad triple jump bronze medallist Praveen Chithravel, and quartermiler Vithya Ramraj among the stars who will be in action in the athletics competition, which begins on Saturday.

एथलेटिक्स आज से शुरू हो रहे हैं, जिसमें एशियाई चैंपियन स्प्रिंट हर्डलर ज्योति याराजी, एशियाई खेलों में 800 मीटर में रजत पदक विजेता मोहम्मद अफसल, एशियाई खेलों के ट्रिपल जम्प कांस्य पदक विजेता प्रवीण चित्रवेल और क्वार्टरमाइलर विद्या: रामराज जैसे सितारे शनिवार से शुरू होने वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एक्शन में होंगे।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in